

# राग विलास .

इस “रागविलास” पुस्तक के ७ भाग प्रकाशित हुये हैं. प्रत्येक भाग में एक खान्दानि उस्तादी पद आलाप, तान, बोलतान सहित बहोत विस्तारपूर्वक लिखा गया है. उनका खुलासा नीचे मुजब.

- |   |           |           |
|---|-----------|-----------|
| (१) परी आली पिया बिन सखी ...            | ... यमन   | - त्रिताल |
| (२) इतने जोबन पर मान न करिये ...        | ... भूप   | - त्रिताल |
| (३) सावलिया रे काहे मारे नजरिया ...     | ... खमाज  | - दादरा   |
| (४) पिया कर घर देखो धरकत है छतियां ...  | ... देस   | - एकताल   |
| (५) मोहे लीनो नेक नजरियन जियां मोरा ... | ... तिलंग | - त्रिताल |
| (६) प्रभु सुन अरज हमारी आज ...          | ... मांड  | - त्रिताल |
| (७) तुम जागो मोहन प्यारे...             | ... भैरव  | - त्रिताल |

इस पुस्तक के और कईक रागों के पदें छप रहें हैं. यह पदें यदि लेखन-पद्धती के अनुसार पूरा पूरा याद हो जाय तो प्रचार के लोकप्रिय रागों की वाक्फियत अच्छी प्रकारसे हो सकती है और तान आलापसह गाना बजाना बहोत आसानिसे व शिघ्रतासे साध्य हो सकता है. बिना उस्ताद के यह पुस्तक गाना सिखा सकती है - यह हम दावे के साथ कहतें है.

उपरोक पदें हमारे परम मित्र प्रो. तांबे शास्त्रीजी, व्यवस्थापक संगीत मंडल, इस विद्वान गुर्णजनने अतीव परिश्रमसे लिखकर छोटे २ पुस्तकद्वारा प्रकाशित कियें हैं. संगीत प्रेमीओं के लिये यह पुस्तकें अत्यन्त उपयोगी है.

शास्त्रीय संगीत का अधिक प्रसार करने के हेतुसे तथा मामुली गरीब मनुष्य भी इन पुस्तकोंसे लाभ उठा सके इस उद्देशसे प्रत्येक भाग की कीमत बहोत कम याने डाक खर्चसह केवल ८ आना रखी है. जैसे मिलनेपर बुक-पोस्टसे भेजा जायगा. वी.पी. रेजिस्टर खर्च ४ आना अलग होगा. सात भाग की कीमत वी. पी. रेजिस्टर खर्चसह रु. ३॥.

कुछ ही प्रतियां बची है. जल्द मंगा लीजिये, वरना यह कुछ ही दिनोंमें चटपट हो जायगी, फिर इन्तजार करना पड़ेगा.

मिलनेका पता:— पांडित फिरोझ फ्रामजी,  
३२२, मेन स्ट्रीट, कैंप, पूना.

# दिलखुश उस्तादी गायकी.

प्रथम भाग.

## प्रास्ताविक हृदयनिवेदन.

प्रिय संगीतानुरागियों,

इस पुस्तक में प्रचलित रागों के ११ चुनीदा ख्याल, ठुमारिया इत्यादि आलाप, तान और किसम किसम के बोलतान के साथ गमकदार नोटेशन में बहोत विस्तारपूर्वक लिखे हैं. इस पुस्तक को अच्छी प्रकारसे अभ्यास करनेसे गायक होनेके बड़ी सुलभता होगी.

उमिद है कि संगीतप्रेमी जन इस पुस्तक से लाभ उठावेंगे और कर्ता के परिश्रम को सुफल करेंगे.

इस पुस्तक के औरभी कईक भाग बनाये जावेंगे. अंधेविस्तार बडा होगा अतएव दर मास को छोटी २ सिरीझमें प्रकाशित होगा. शास्त्रीय संगीत का अधिक प्रसार करनेके हेतुसे तथा मामूली गरीब मनुष्य भी इस पुस्तक से लाभ उठा सके इस उद्देशसे चालु वर्गणिदार के लिए प्रत्येक सिरीझ की कीमत बहोत कम याने डाक खर्च सह केवल रु. ०-४-९ रखी है.

जिस किसीको तान आलापसह गाना बजाना शीघ्रतासे साध्य करना हो तो उसके लिए यह सिरीझ बहोत उपयोगी वस्तु होगी. उसकी प्रशंसा करना ये तो आत्मस्तुती जैसाहि है. आप महाशयो उसका अनुभव लेके विश्वास रखेंगे, और चालु वर्गणिदार श्रेणीमें आपका नाम फौरन दाखल करके मेरा उत्साह और बढ़ायेंगे, ऐसी आशा है.

इस प्रथम छे सिरीझ के पुस्तक प्रकाशित करनेमें हमारे चालु वर्गणिदारों से बहोत सहायता मिली है इस लिये उन सबोंके मनःपूर्वक आभार मानकर अपना प्रास्ताविक निवेदन पूर्ण करता हूं.

३२२, मेन स्ट्रीट, कंप. }  
पूना. ता. १-५-१९३४.

कृपामिलापी,  
फिराँझ फ़ामजी.

# चीजों की सूची

नं.	चीज.	राग तथा ताल.	पृष्ठ.
१	तोरे मान नाहीं सैयां .. ..	रागमाला — केरवा .. ..	५
२	रसिया मत बोल रे .. ..	अडाणा — त्रिताल .. ..	१०
३	मानत नाहीं बरजोरी करत .. ..	अडाणा — त्रिताल (विलंबित) .. ..	१५
४	कान्हा नैयां करो मोरी पार .. ..	भैरवी — धुमाळी .. ..	१८
५	ऋत बसंतमें अपनि उमंगसो .. ..	बागेश्री बहार — त्रिताल .. ..	२१
६	जावोजी जावो नंद कुवर घर .. ..	बागेश्री — त्रिताल (विलंबित) .. ..	२५
७	छबिले छेल खेले होरी .. ..	दुर्गा — त्रिताल .. ..	२८
८	बादरवा बरसन आये .. ..	सूरमछार — त्रिताल .. ..	३२
९	गरजत आये बादरवा .. ..	सूरमछार — तिलवाडा (विलंबित) .. ..	३६
१०	मैं न जाऊं हरि पासे .. ..	सारंग — एकताल .. ..	३९
११	नैननमें आन बान .. ..	मुलतानी — एकताल .. ..	४५

**नोटः—**नोटेशन के चिन्हों का खुलासा हमारे सब पुस्तकों में लिख दिए हैं  
अतएव इस पुस्तक में बार बार लिखा नहीं.



# दिलखुश उस्तादी गायकी.

## (१) रागमाला - केरवा. (२० रागों के मिश्रण)

तोरे मान नाहिं सैयां.

डगर चलत मोरी पायल बाजे, जागे सास ननंदिया.

### १, पहाडी झिझोटी.

S ग ॥ ग सा S ध ॥ सा S सा S ॥ सा नी ध नी ॥ सा ग S ग ॥ ग सा S ध ॥ सा S सा S ॥  
 S मा ॥ न ना S हि ॥ सै S यां S ॥ हां S S S ॥ तो रे S ॥ मा ॥ न ना S हि ॥ सै S यां S ॥  
 ° = ° = (सम) ° = ° = ° = ° = ° = °

#### (अंतरा)

१: S S ॥ सा S ॥ सा ग S म ॥ प S ॥ प S ॥ म ग ॥ प S ॥ S ग S रे ॥ ग S ॥ प S ॥  
 S S ॥ ड S ॥ ग र S च ॥ ल S ॥ त S ॥ मो S ॥ री S ॥ S पा S S ॥ य S ॥ ल S ॥

रे S ॥ S S ॥ सा S ॥ S S ॥ S म् ॥ S म् ॥ म् S ॥ S म् ॥ म् S ॥ रे S ॥ रे S ॥ रे S ॥  
 बा S ॥ S S ॥ जे S ॥ S S ॥ S जा ॥ S गे ॥ सा S ॥ S स ॥ न S ॥ नं S ॥ दि S ॥ या S ॥

S S ॥ S S ॥ S म् ॥ S म् ॥ म् S ॥ S म् ॥ म् S ॥ रे S ॥ रे S ॥ रे S ॥ ग ॥ ग सा S ध ॥  
 S S ॥ S S ॥ S जा ॥ S गे ॥ सा S ॥ S स ॥ न S ॥ नं S ॥ दि S ॥ या ॥ मा ॥ न ना S हि ॥

सा S ॥ सा S ॥ धनी सारे ॥ नीसा रेग ॥ म्ग रे S ॥ ग ॥ ग सा S ध ॥ सा S सा S ॥ सारे ग रे ॥ रेग म्ग ॥  
 सै S यां S ॥ हां S S ॥ S S ॥ तो S रे S ॥ मा ॥ न ना S हि ॥ सै S यां S ॥

नीसा रे ॥ सारे ग ॥ म्ग रे S ग ॥ ग सा S ध ॥ सा S सा S ॥ सारे ग रे ॥ रेग म्ग ॥  
 हां S S ॥ S S ॥ तो S रे S मा ॥ न ना S हि ॥ सै S यां S ॥ हां S S ॥ S S ॥

पम् ग S ॥ ग ॥ ग सा S ध ॥ सा S सा S ॥ ग रे ॥ म्ग ॥ पम् ग S ग ॥ ग सा S ध ॥  
 तो S रे S ॥ मा ॥ न ना S हि ॥ सै S यां S ॥ हां S S S ॥ तो S रे S मा ॥ न ना S हि ॥

सा S ॥ सा S ॥ सारे रेग ॥ गम् म्प ॥ पम् ग S ग ॥ ग सा S ध ॥ सा S सा S ॥  
 सै S यां S ॥ हां S S ॥ S S ॥ तो S रे S मा ॥ न ना S हि ॥ सै S यां S ॥

म ऽ प ऽ म् ग ऽ ग सा ऽ ध ऽ सा ऽ सा ऽ सा नी ध नी सा ग ऽ ग  
 हां ऽ सा ऽ तो रे ऽ मा न ना ऽ हि ऽ सै ऽ यां ऽ हां ऽ सा ऽ तो रे ऽ सा  
 ध प ऽ म् ग रे ग प गम् गरे सारे सारे ग ऽ ग ग सा ऽ ध सा ऽ सा  
 न ना ऽ हि सै ऽ सा यां ऽ सा रे ऽ सा मा न ना ऽ हि सै ऽ या  
 सा नी प ध सा ऽ ग ग सा ऽ ध सा सा ध प म रे ग  
 हां ऽ तो रे सा मा न ना ऽ हि सै ऽ या मा न ना ऽ हि  
 प ऽ प ऽ म् ग रे रे ग ग सा ऽ सा सा सा सा  
 सै ऽ या सां हां ऽ सा तो रे सा मा न ना ऽ हि सै ऽ यां  
 पव धसा सारे रेग म्ग रे ग ग सा ऽ ध सा सा सा सा सा  
 हां ऽ सा तो रे सा मा न ना ऽ हि सै ऽ यां सा सा सा मा

## २, भूप.

रे ग ऽ प रे सा ऽ सा रे ध सा ऽ ग रे ग ऽ प  
 न ना ऽ हि सै या सा सा तो रे सा मा न ना ऽ हि  
 पव पप गप गरे सासा सा ग ग सा ऽ ध सा सा सा सा ध  
 सै सा सा या रे सा मा न ना ऽ हि सै यां सा सा सा मा

## ३, मांड.

ध ध ऽ प नी ध ग रे म् प म्ग रेग सा ग रे म् प  
 न ना ऽ हि सै यां सा मा न ना ऽ हि सै सा या मा न ना ऽ हि  
 म्ग रेग सा ग ग सा ऽ ध सा सा सा सा प  
 सै सा या मा न ना ऽ हि सै या सा सा मा

## ४, बिहाग.

म ग ऽ म् ग सा रे नी सा सा नी प नी सा ग प  
 न ना ऽ हि सै सा यां सा सा हां सा सा तो रे सा मा  
 म ग ऽ म् गम् पनी सांनी धप गम् गरे सा ग ग सा ऽ ध सा सा ध  
 न ना ऽ हि सै सा सा सा सा या मा न ना ऽ हि सै या मा

५, दुर्गा.

प म् | रे सा || धसा रेम् | सारे म्प || धध ऽ | ऽ ध || प म् | रे सा || रे ध | सा ध ||  
 न ना | ऽ हिं || सैऽ ऽ | ऽ ऽ || यारे ऽ | ऽ मा || न ना | ऽ हिं || सैऽ ऽ | या मा ||

प म् | रे सा || रे ध | सा ग || ग सा | ऽ ध || सा ऽ | सा : ऽ || ऽ ऽ | ऽ ग ||  
 न ना | ऽ हिं || सैऽ ऽ | या : मा || न ना | ऽ हिं || सैऽ ऽ | या : ऽ || ऽ ऽ | ऽ मा ||

६, जैजैवंती.

रेसा ध | ऽ नी || रे ऽ | रे ऽ || सा ऽ | ग रे || म् ग | रे ग || रेसा ध | ऽ नी ||  
 नऽ ना | ऽ हिं || सैऽ ऽ | यां ऽ || हां ऽ | तो ऽ || ऽ ऽ | रे मा || नऽ ना | ऽ हिं ||

रे ऽ | रे ऽ || सा नी | ध नी || सा ग | ऽ ग || ग सा | ऽ ध || सा ऽ | सा : सा |  
 सैऽ ऽ | यां ऽ || हां ऽ | तो ऽ || रे ऽ | ऽ : मा || न ना | ऽ हिं || सैऽ ऽ | या : मा ||

७, हिंडोल.

ग ग | म ध || सां ऽ | ऽ नी || ध म | ग ग || सा ऽ | ऽ : ग || ग सा | ऽ ध || सां ऽ | सा : ग् ||  
 न ना | ऽ हिं || सैऽ ऽ | ऽ ऽ || ऽ ऽ | ऽ ऽ || या ऽ | ऽ : मा || न ना | ऽ हिं || सैऽ ऽ | या : मा ||

८, पीछ.

ग् ग् | ऽ ग् || सारे म्प | नी पम् || ग्म् ग्रे | सा ऽ | सा ऽ | ऽ ग् || ग् ग् | ऽ ग् || ग् ऽ | ऽ ऽ ||  
 न ना | ऽ हिं || सैऽ ऽ | ऽ ऽ || यां ऽ | ऽ ऽ || रे ऽ | ऽ मा || न ना | ऽ हिं || सैऽ ऽ | ऽ ऽ ||

सा नी | प ध् || सा ऽ | ऽ ऽ || सा नी | प ध् || सा ऽ | ऽ ग् || ग् ग् | ऽ ग् || सा रे | म् प ||  
 यां ऽ | ऽ ऽ || रे ऽ | ऽ ऽ || यां ऽ | ऽ ऽ || रे ऽ | ऽ मा || न ना | ऽ हिं || सैऽ ऽ | ऽ ऽ ||

९, काफ़ी जिल्हा.

नी प<sup>म्</sup> | ग् ऽ || ग् ऽ | ऽ ग् || रे ध | ऽ नी || सा ऽ | सा ग् | रे ध | ऽ नी || सा ऽ | सा ऽ ||  
 ऽ ऽ | यां ऽ || रे ऽ | ऽ मा || न ना | ऽ हिं || सैऽ ऽ | या मा | न ना | ऽ हिं || सैऽ ऽ | या ऽ ||

सा नी | ध नी || सा ग | ऽ ग || ग सा | ऽ ध || सा ऽ | सा ऽ || ऽ ऽ | ऽ ऽ ||  
 हां ऽ | ऽ ऽ || तो रे | ऽ मा || न ना | ऽ हिं || सैऽ ऽ | यां ऽ || ऽ ऽ | ऽ ऽ ||

## १०, भीमपलासी.

$\begin{array}{l} \text{ऽ नी | ध प | ग्म् | रे सा | रे | सा | नी सा | ग्म् प | ऽ नी | ध प | ग्म् | रे सा } \\ \text{ऽ मा | न ना | ऽ ऽ | हि | सै | या | हां | ऽ | तो | रे | ऽ मा | न ना | ऽ ऽ | हि } \end{array}$

$\begin{array}{l} \text{रे | सा | नी | प नी | सा | ऽ ग | ग सा | ऽ ध | सा सा | ऽ म् | } \\ \text{सै | यां | हां | तो | रे | ऽ मा | न ना | ऽ हि | सै यां | ऽ मा | } \end{array}$

## ११, वागेश्री.

$\begin{array}{l} \text{ग् रे | ऽ सा | रे | सा | नी | ध नी | सा | ऽ म् | ग् रे | ऽ सा | रे | सा | } \\ \text{न ना | ऽ हि | सै | यां | हां | तो | रे | ऽ मा | न ना | ऽ हि | सै | यां | } \end{array}$

$\begin{array}{l} \text{ग्म् धनी | म्ध नीसां | नीध पम् | ग्रे साम् | ग् रे | ऽ सा | रे | सा | नी | ध नी } \\ \text{तो | ऽ | रे | ऽ मा | न ना | ऽ हि | सै | यां | हां | तो | } \end{array}$

$\begin{array}{l} \text{सा | ऽ ग | ग सा | ऽ ध | सा सा | ऽ म् | } \\ \text{रे | ऽ मा | न ना | ऽ हि | सै यां | ऽ मा | } \end{array}$

## १२, कालिगडा.

$\begin{array}{l} \text{ग रे | ऽ सा | नी | सा | नी नी | सा रे | ग | ऽ ध् | ध् प | ऽ ध् | म् प | ऽ ध् | } \\ \text{न ना | ऽ हि | सै | यां | हां | तो | रे | ऽ मा | न ना | ऽ हि | सै यां | ऽ मा | } \end{array}$

$\begin{array}{l} \text{ध् प | ऽ ध् | म् प | ऽ म् ग | सा रे | ग | ऽ म् | ग रे | ऽ सा | नी | सा | } \\ \text{न ना | ऽ हि | सै यां | हां | तो | रे | ऽ मा | न ना | ऽ हि | सै | यां | } \end{array}$

$\begin{array}{l} \text{सा नी | ध् नी | सा ग | ऽ ग | ग सा | ऽ ध् | सा | सा | म् | } \\ \text{हां | तो | रे | ऽ मा | न ना | ऽ हि | सै | यां | मा | } \end{array}$

## १३, भैरव.

$\begin{array}{l} \text{ग म् | प प | ध् | ध् | प | ऽ म् ग | म् ग | रे | सा | } \\ \text{न ना | ऽ हि | सै | यां | हां | तो | रे | } \end{array}$

$\begin{array}{l} \text{ऽ ऽ | ऽ रे | सा ध् | ऽ नी | सा | सा | सा नी | ध् नी | सा ग | ऽ ग | } \\ \text{ऽ ऽ | ऽ मा | न ना | ऽ हि | सै | यां | हां | तो | रे | ऽ मा | } \end{array}$

$\begin{array}{l} \text{ग सा | ऽ ध् | सा | सा | ऽ ऽ | ऽ ध् | } \\ \text{न ना | ऽ हि | सै | यां | ऽ मा | } \end{array}$

१४, जोगिया.

मू रे | स सा || सा स | स स || सा रे मू प | धू नी स || धू स | प स || मू स | रे स || सा स | स : ग ||  
 न ना | स हि || सै स | स स || यां स | स स || स स | स स || स स | तो स || रे स | स : मा ||  
 ग सा | स धू || सा स | सा : सा ||  
 न ना | स हि || सै स | या : मा ||

१५, ललित.

नी रे | ग मू || मू स | स स || मू म | मू स || ग रे | ग म | ग रे | सा : ग || ग सा | स धू ||  
 न ना | स हि || सै स | स स || स स | यां स || हां स | स स || तो स | रे : मा || न ना | स हि ||  
 सा स | सा : स || स स | स : नी ||  
 सै स | या : स || स स | स : मा ||

१६, पूर्वी.

म धू  
 रे ग | स रे || ग मू | ग स || प धू | म पम || ग मू | ग : ग || ग सा | स धू || सा स | सा : नी ||  
 न ना | स हि || सै स | यां स || हां स | स स || तो स | रे : मा || न ना | स हि || सै स | या : मा ||

१७, मारवा.

रे ग | स म || नी धू | स म || ग रे | ग म | ग रे | सा : स || नी रे | नी धू | म धू | सा स ||  
 न ना | स हि || सै स | स स || स स | स स || यां स | स : स || हां स | स स || तो स | रे स : ||  
 स स : स ग || ग सा | स धू || सा सा : स रे ||  
 स स : स मा || न ना | स हि || सै यां : स मा ||

१८, दरबारी.

नी  
 सा धू | स नी || सा स | सा स || रे स | सा रे | गू गू | मू रे | सा धू | स नी || सा स | सा स ||  
 न ना | स हि || सै स | या स || हां स | तो स || रे स | स मा || न ना | स हि || सै स | यां स ||  
 सा नी | धू नी || सा ग | स ग || ग सा | स धू || सा स | सा : स || स स | स : गू ||  
 हां स | तो स || रे स | स : मा || न ना | स हि || सै स | या : स || स स | स : मा ||

१९, मालकौंस.

नी  
 सा धू | स नी || सा स | मू स || मू स | स मू || सा स | स गू || मू धू | स नी || सां स | सां स ||  
 न ना | स हि || सै स | स स || या स | स तो स || रे स | स : मा || न ना | स हि || सै स | यां स ||



मं गं॑ मं गं॑ ॥ मं गं॑ सां ॥ S S ॥ नी ध् म् ॥ म् ध् नी सां ॥ नी नी ध् म् ॥ ग् म् सा ॥ नी ध् ॥ S नी ॥  
 हां S S S ॥ तो S रे ॥ S S ॥ आ S S ॥ S S ॥ S S ॥ S ॥ मा ॥ न ना ॥ S हि ॥  
 सा S म् S ॥ म् S S ॥ म् ग् सा S S ॥ ग ॥ ग सा S ध् ॥ सा S सा ॥ S S S ॥ रे ॥  
 सै S S S ॥ यां S S तो S ॥ रे S S ॥ मा ॥ न ना S हि ॥ सै S या ॥ S S S ॥ मा ॥

## २०, भैरवी.

सा ध् ॥ S नी ॥ सा रे ॥ सा S S S S S ॥ सारे ग्रे ॥ रे ग् म् ॥ प म् S रे ॥ सा ध् ॥ S नी ॥  
 न ना ॥ S हि ॥ सै S या S ॥ S S S ॥ S ॥ हां S S S ॥ तो रे ॥ S ॥ मा ॥ न ना ॥ S हि ॥

सा रे ॥ सा ॥ ग् ॥ ग् ग् ॥ S सा ॥ सारे ग्रे ॥ नी S ॥ S सा ॥ नी सा ॥ S ग् ॥ रे सा ॥ S S S ॥ रे ॥  
 सै S या ॥ मा ॥ न ना ॥ S हि ॥ सै S S ॥ या S ॥ S मा ॥ न ना ॥ S हि ॥ सै या ॥ S S S ॥ मा ॥

सा ध् ॥ S नी ॥ सा सा ॥ S ॥ प ॥ प ग् ॥ S म् ॥ प प ॥ S प ॥ म् प ॥ ध् प ॥ म् म ॥ म् ॥ ग् ॥  
 न ना ॥ S हि ॥ सै या ॥ S ॥ मा ॥ न ना ॥ S हि ॥ सै यां ॥ S मा ॥ न ना ॥ S हि ॥ सै S या ॥ S ॥ मा ॥

रे ग् ॥ म् ग् ॥ रे सा ॥ S ॥ रे ॥ सा ध् ॥ S नी ॥ सा सा ॥ S ॥ S ॥ सा नी ॥ ध् नी ॥ सा ग् ॥ S ग् ॥  
 न ना ॥ S हि ॥ सै या ॥ S ॥ मा ॥ न ना ॥ S हि ॥ सै या ॥ S ॥ S ॥ हां S ॥ S S ॥ तो रे ॥ S मा ॥  
 न नाहि सैयां.

## अडाणा-त्रिताल. (मध्य लय)

रसिया मत बोल रे तेहारि मिलनवा, आस पिया तुम जाकि रे.

हूं तो नहीं इत तूं रंगीले, मान कहावे पियाकि रे.

S S S नी ॥ प म् ग् म् प सां ॥ सां S S ध् ॥ S S ध् नी ॥ प S S नी ॥ नी प म् प प नी ॥  
 S S S ॥ र ॥ सि S या S म त ॥ बो S S S ॥ S S S ल ॥ रे S S ॥ ते ॥ S S S S ॥  
 ० ३ = (सम) २ ० ३

म् म् म् ॥ म् ॥ नी नी ॥  
 प S ग् S ॥ ग् म् रे सा ॥ रे रे सा S ॥ सा रे म् प ॥ ध् S ध् S ॥ ध् नी ध् नी S ॥  
 हां S S S ॥ S S रे मि ॥ ल न वा S ॥ आ S स पि ॥ या S S S ॥ तु म जा S S ॥



म् रेसा नीसा, नीनी ॥ पम् रेसा नीसा, रेंरें । सां ध् नीम् पम् म् । रेसा नीसा, मंम् रेंसां ।  
 नीसां रेंध् नीप गम् ॥ पम् म् रेसा नीसा, । साम् रेप म्नी पसां । ध्नी सां ऽ, र । सिथ्या मत  
 नीनी प,नी नीप, नीनी । पम् रेसा; रेंरें सां,रें । रेंसां, रेंरें सांनी पम् । रेसा नीसा; मंम् रें,म् ॥  
 मंरें, मंम् रेंसां नीनी । पम् रेसा; रेम् पध् । नीरें सां ऽ, र । सिथ्या मत बोल  
 ग्म् रेसा, पनी पम्, । नीरें सांनी, गंम् रेंसां, ॥ नीरें सांनी, पनी पम्, । ग्म् रेसा, सारे म्प ।  
 ध्नी सां ऽ, र । सिथ्या मत बो । म्प नीसां रें, सांनी । सां, नीप नी, पम् । प, म्रे म्, रेसा ॥  
 रे, सांनी सा, रेम् । पनी म्प नीसां रें । सां ऽ ऽ, र । सिथ्या मत बोल रे । सासा सासा, रेरे रेरे, ॥  
 म्प म्प, पप पप, । ध् ध्, नीनी नीनी । रें सां ऽ, र । सिथ्या मत बोल रें

अंतरा. हूं तो नहीं

सां ऽ ध् नी । रें सां ऽ, हूं । तो नहीं । म् ऽ प ऽ । ध् नी सां, हूं । तो नहीं  
 रें ऽ सां नी । ध्नी रें सां, हूं । तो न ॥ म् प ऽ प । ध् नी ऽ नी । रें सां ऽ, हूं । तो नहीं  
 म्प ध्नी सां, ध्नी । सां, ध्नी सां, हूं । ऽ तो ऽ न ॥ हीं ऽ, सारे म्प । ध्नी सां, सारे म्प ।  
 ध्नी सां ऽ, हूं । तो नहीं । ध्नी सारें सारें सांनी । ध्नी सां ऽ, हूं । तो नहीं । नीरें सांनी ध्सां नीध् ।  
 म्प सां ऽ, हूं । तो नहीं । म्प नीसां गंम् ऽम् । रें सां ऽ, हूं । ऽ तो ऽ न ॥ हीं ऽ नीप म्प ।  
 म्प सां, नीध् नी । सां ऽ ऽ, हूं । तो .... रंगिले । म्प नीसां रेंरें सांनी ॥ ध्नी सारें गूंरें सारें ।  
 सांनी सांनी पनी पम् । ग्म् रेसा ऽ, हूं । तो .... रंगिले । म्प नीसां रेंध् पंम् ॥ रेंसां नीसां रेंम् रेंसां ।  
 नीसां रेंरें सांनी सांनी । पनी पम् ग्म्, हूं । तो .... मा । ऽ न, ध्नी सां, ध् ॥ नीसां, ध्नी सारें नीसां ।

धुनी म्प ग्म् रेसा, । नीसां रे, नी सारें, नीसां । ग्म् रेंसां धुनी म्प ॥ ग्म् रेसा, नीसा ग्म् ।  
 २ ० ३ = हूँऽऽ

पधु नीरें सां, नीसा । ग्म् पधु नीरें सां, नीसा ग्म् पधु नीरें ॥ सां ऽऽऽ धुनी सां ऽऽ  
 तोऽऽ न हीं, हूँऽऽ । ऽ तोऽऽ न हीं, हूँऽऽ ऽ तोऽऽ न ॥ हीं ऽऽऽ । ऽ ऽऽऽ  
 २ ० ३ = २

ऽऽ नी सारें ऽसां । धुनी पम् पनी ऽसां ॥ ग्म् रेंसां रेंसां धुनी । रेंसां ऽनी पम् पसां ।  
 ऽऽ ततूँ ऽरं । गीऽऽ लेमा ऽन ऽक ॥ हाऽऽ वेपि याऽऽ ऽ । किरें ऽर सिया मत ।  
 ० ३ = २

नी सां, ऽनी पम् पसां । सां, ऽनी पम् पसां ॥ नीसां ऽऽ प । सां ऽऽऽ ।  
 बोल, ऽर सिया मत । बोल, ऽर सिया मत ॥ बोऽऽऽ ल । रें ऽऽऽ ।  
 ० ३ = २

### बोलतानें.

रें सां नी सां नीप । नी पम् प म्ग् ॥ म् रेसा रे सा । नीसा रेम् पनी म्प । सां ऽऽ, नी ।  
 र सिऽ या मऽ । त बोऽऽ लऽ ॥ रे तेऽ हा र । मिऽ ऽऽ लन । वा ऽऽ, र ।  
 ० ३ = २ ०

पम् ग्म् प सां । नीसां ऽऽऽ । ऽऽऽ रें । नी सां धु नी । सां ऽऽ धु ॥ नी ऽऽ धु ।  
 सिऽ या म त । बोऽऽ ल । ऽऽऽ र । सि या म त । बोल ऽऽ ते ॥ हा ऽऽ र ।  
 ३ = २ ० ३ =

नी ऽऽ सां । रें सां ऽ, नी । सारे ऽरे म् ऽम् ॥ म्प ऽप धु ऽधु ।  
 मि ऽऽ ल । न वा ऽ, र । सिया मत बोल रे । रऽऽ सि ऽऽ या ॥ मऽ ऽत ऽऽ बो ।  
 २ ० ३ =

धुनी ऽनी सां ऽसां । रें सां ऽ, नी । प म् प सां ॥ धु नी ऽ धु । सां ऽ सां ऽ । रें ऽ सां ऽ ।  
 लऽ ऽते ऽऽ हा । ऽ र ऽ, र । सि या म त ॥ र ऽऽऽ सि ऽ या ऽ । म ऽ त ऽ ।  
 २ ० ३ = २ ०

ना धु ऽऽ नी ॥ सां ऽऽऽ । सारे म्प धुनी धुनी । रें सां ऽ, नी ।  
 बो ऽऽ ल ॥ रें ऽऽऽ । तेऽऽ ऽऽ हाऽऽ । ऽ र ऽ र । सिया मत बोल

<sup>ची</sup>  
 सारेम् पध्नी | सारेम् रेसांसां || नीध्नी गुंमरे | सारेसां ध्नी | रेसां S S, नी | पम् ग्म् प सां ||  
 रसिया मतबो | लरेते हारमि || लनवा आसपि | यातुम जाऽऽ | किरि S S, र | सिऽ याऽ म त ||  
 ० ३ = २ ० ३

नी S S सांनी | ध्नी सां रेरे सांनी | ध्नी सां S, नी | प म् प सां || सारे सां, सां रेसां नीप, |  
 बो S S S | S S लऽ रेऽ | S S S र | सि था म त || रऽ S सि S याऽ |  
 = २ ० ३ =

<sup>म्</sup>  
 पनी प, प नीप, म्म्, | ग्म् गु, गु म्म्, नीप | ग् म् प सां || म्म् रेरे पप म्म् | नीनी पप सांनी ध्नी |  
 मऽ उत S बोऽ | लऽ रे S रऽ | सि या म त || रऽ सिऽ याऽ मऽ | तऽ बोऽ लऽ रेऽ |  
 २ ० ३ = २

<sup>म्</sup>  
 सारे नीसां S, नी | प म् प सां || म्म् गुंम् रेसां, रेरे | सारे सांनी ध्नी सारे |  
 S S S र | सि या म त || रऽ सिऽ S याऽ | मऽ तऽ बोऽ S |  
 ० ३ = २

<sup>म्</sup>  
 नी सां सां, नीप | ग् म् प सां || म्म् रेसा पप म्म् | ध् ध् नी ध्नी | सां S S सां |  
 ल S रे रऽ | सि या म त || रऽ S सिऽ याऽ | मऽ S त S | बो S S ल |  
 ० ३ = २ ०

S S S S || ध्नी सारे सारे सांनी | ध्नी सां S S | नी ध्नी सांसां S | S S S S ||  
 S S S S || तेऽ S S S | हाऽ रे S S | मि लऽ नवा S | S S S S ||  
 ३ = २ ० ३

<sup>म्</sup> <sup>नी</sup>  
 सा रे S म् | प ध् S नी | सां सां सां, नी | ध्नी सारे सारे सांनी |  
 आ स S पि | या तु S म | जा कि रे र | सिया मत बोल | रऽ S S S S |  
 = २ ०

<sup>नी</sup>  
 ध्नी सांसां ध् नी | सां S S सां | पनी सारे नीसां रे | सारे सांनी पप S | नी ध्नी रे सां ||  
 सिऽ S या म त | बो S S ल | तेऽ S S S | हाऽ S रऽ S | मि लऽ न वा ||  
 ३ = २ ० ३

<sup>म्</sup>  
 म्प जप पध् उध् | ध्नी जनी नीसां ज्सां | रे सां सां, नीप | ग् म् प सां || नीसां S S नी |  
 आऽ S सऽ पि | याऽ S तुऽ ज्म | जा कि रे रऽ | सि था म त || बोल S S ल् |  
 = २ ० ३ =

प म् प सां | नीसां S S नी | प म् प सां || सां | ध्नी नीनी नी नी | ध्नी नीनी ध्नी नीनी ॥  
 सि या म त | बो S S लर | सि या म त || बोल | ° ३  
 २ ° ३ = २

ध्नी सां रे रे रे | रे रे रे सां नीसां | ध्नी सां, पनी म्प | म् ग् म्प रेसा ॥ रे सा, रे रे म्प ।  
 = २ ° ३ =

पप ध् नीनी सां, ध् नीनी सां, ध् नीनी सां, ध् नीनी सां || सां  
 २ ° ३ म त || बोल. (सम)  
 =

### अडाणा-त्रिताल. (विलंबित)

मानत नाहीं बरजोरि करत, हर घडि छेडत परघर नारी.

मैं जमुना तट नीर भरन चली, मत कर मोहन रार अनारी.

म् नी म् म् म्  
 1: नीप ग्मपसां S सांरे || नीसां ध् नी प | म्प ग् ग्म म् | रे रे सा सा |  
 माS S नत || नाS S हीं | बS र जोS S | रि क र त |  
 ३ = (सम) २ °

सा नी नी  
 नी सा ग्म म्प || ध् नी सां सां | सां सांनी रें सांरें | नीसां ध्नी सां ध् |  
 ह र घS डीS || छे S ड त | प रS घ रS | नाS S री S | मानत....करत  
 ३ = २ °

### अंतरा

प सां  
 म् प नीप नी || सां नी सां सां | नीसां रेंसां रें सांरें | नी सां नीध नीप |  
 मैं S जS मु || ना S त ट | नीS S र भS | र न चS लीS |  
 ३ = २ °

प म्  
 म् प नी सां || ग् म् रें सां | रें S सां रें | नीसां ध्नी सां ध् |  
 म त क र || मो S ह न | रा S र अ | नाS S री S |  
 ३ = २ °

आलाप, मानत .... करत

नी सा रे सा ॥ S, ग् म् रे । सा S, ध् S । नीप म्प ग् S, । म् रे सा S, ॥ सां S ध् S ।  
 ३ = २ ° ३ =

नीप म्प ग् S, । ग् म् रे सा । मानत .... करत । नी सा रे म् ॥ प ध् सां S, । ध् नी सां S, ।  
 २ ० ३ = २

रें S सां S । ध् नी प S, ॥ म् प ग् S, । ग्म प ग् S, । ग्म रे S सा । मानत .... करत  
 ० ३ = २ ०

सा ग् म् ॥ प प ध् । नी रे सां S, । म् प नी सां । ग् म् रे सां ॥ S, नी सां रे ।  
 ३ = २ ० ३ =

ध् S नी प । S, म् रे पम् नीप । सां S S S, ॥ नी प ग् S, । ग् म् प ग् । S, ग्म रे सा । मानत  
 २ ० ३ = २ ०

### तानें

सासारे सासा, ग्म म् रेसासा, नीपम्प । ग्म म् रे सासा, रेरे सांनीसांसां नीपम्प ।  
 = २

ग्म म् सासा, नीसा रेम्पध् नीरेसांS । मानत .... करत । म् म् रेसा नीसा, नीनी पम् रेसा नीसा, रेरे ॥  
 ० ३

सांध्नीम् पग्मम् रेसानीसा, म् म् रेसां । नीसांरेध् नीपग्म पग्मम् रेसानीसा, ।  
 = २

साम् रेप म् नीपसां रेध्नीसां, ग्म रेसा । मानत .... करत । नीसाग्S, पग्S, नीनीपम् पग्S, ॥  
 ० ३

रेरेसांसां नीनीपम् पग्S, ग्म म् । नीनीपम् पग्S, पग्S म् रेसाS ।  
 = २

नीसारेम् परेरेसां नीपग्म म् रेसासा । मानत ॥ नीसारेम् पS, म्प ध्S नीप, म्पध्नी ।  
 ० =

सांध्नीप, म्पध्नी रेरेसांसां रेध्नीप, । ग्म रेसां रेध्नीप म्पसांS, ग्म रेसा । मानत  
 २ ०

म्पनीप म्पनीप म्पग्म रेसानीसा । नीसारेम् पनीम्प म्पनीसां ध्नीसांS ।  
 = २

ग्म रेसां नीनीपप ग्म म् रेरेसासा । मानत नाहिं । म्पध्नी सारेनीसां ध्नीसांरे नीसांनीप ।  
 २





## भैरवी—धुमाळी (मध्य लय)

कान्हा नैयां करो मोरी पार ; हारे मोरी नैयां, हो भजिरी नैयां रे ; गहरी नदियां कान्हा जाये.  
ननंदजी के छैया देखो, यशोदा दुलैया कान्हा, दाऊजी के मैया, मोरा कन्हैया कन्हैया करो मोरी पार.

सा ५ ५ ५ | ५ ५ ५ ५ || ५ ५ ५ ५ | रे ५ सा ५ || रे ५ सा ५ | ५ ५ ५ ५ ||  
आ ५ ५ ५ | ५ ५ ५ ५ || ५ ५ ५ ५, | ५ ५ ५ ५ | मो ५ रि ५, | ५ ५ ५ ५ ||  
=

नी  
५ ५ ध् ५ | नी ५ सा ५ || ५ ५ ५ ५ | ग् ५ ५ रे || सा ५ ५ ५ | ५ ५, सा सा ||  
५ ५ ५ ५ | ५ ५ ५ ५ || ५ ५ ५ ५ | का ५ ५ न्मो || री ५ ५ ५ | ५ ५, मो रि ||  
=

रे सा रे | सा ध् ५ नी || ५ ५ सा सा | सारे ५ रे ग् || रे सा रे | सा ध् ५ नी ||  
नै या क | रो मो ५ रि || ५ ५ पा र | का ५ ५ न्हा रि || का न्हा क | रो मो ५ रि ||  
= (सम)

सा ५ ५ ५ | ५ ५ नी ५ || नी सा नी रे | सा ५ ५ ५ || ५ ५ ५ ५ | सा रे ग् ग् ||  
पा ५ ५ ५ | ५ ५ ५ ५ || ५ ५ ५ ५ | री ५ ५ ५ || ५ ५ ५ ५ | हा रे मो रि ||

म् म् ५ ५ | ५ ५ म् ५ || म् म् ५ म् | म् ५ ग् म् प् म् || ग् रे सा ५ ५ | ५ ५ सा सा |  
नै यां ५ ५ | ५ ५ हो ५ || भि ज ५ रि | नै ५ यां ५ ५ || रे ५ ५ ५ ५ | ५ ५ मो रि |

ग् ग् ग् ५ | ग् ग् ग् ५ || ५ रे सा ५ | ५ सा रे ५ || सारे ग् रे सानी ५ | ५ ५ सा ५ ||  
ग ह री ५ | न दि या ५ || ५ ५ ५ ५ | ५ न दि ५ || या ५ ५ रे ५ ५ | ५ ५ का ५ ||

रे ५ ग् ५ | म् ५ रे सा || रे सा रे | सा ध् ५ नी || ५ ५ सा सा | सारे ग् म् प् ध् प् म् ||  
५ ५ ५ ५ | न्हा ५ मो रि || नै या क | रो मो ५ रि || ५ ५ पा र | का ५ ५ ५ न्हा ५ ||

ग् रे सा रे | सा ध् ५ नी || सा ५ ५ ५ | ५ ५ ग् सा || म् सा म् ग् | ध् ५ प ५ ||  
मो रि क | रो मो ५ रि || पा र ५ ५ ५ | ५ ५ पा ५ || ५ ५ ५ ५ | ५ ५ रे ५ ||

५ ५ ५ ५ | ५ ५ ग् ५ || पा ५ ५ ५ | ५ ५ ५ ५ || पा प प | पा प ध् ||  
५ ५ ५ ५ | ५ ५ नै ५ || या ५ ५ ५ | ५ ५ ५ ५ || हा मो रि नै या भी ||

प ध् प ा | पध् नीसां नीध् पम् || १ १ १ १ | म् म् म् प || प ऽ नी ऽ | ध् ऽ ऽ ऽ ||  
 ऽ ज री ा | हां ऽ ऽ मो ऽ रि || १ १ १ १ | हा रे मो रि || नै ऽ ऽ ऽ | या ऽ ऽ ऽ ||

प म् ग् रे | ग् म् प ध् || ऽ पम् ग् रे | ग् म् प ध् || प म् रे सा | १ १ १ १ ||  
 रे ऽ ऽ ऽ | ऽ ऽ ऽ ऽ || ऽ रे ऽ ऽ ऽ | ऽ ऽ ऽ ऽ || मो ऽ री ऽ | १ १ १ १ ||

प ऽ प प | प ऽ प ऽ || १ १ १ १ | प ा प प || ध नी ा धनी | ा धनी ा धनीसां ऽ ||  
 भी ऽ ज री | नै ऽ यां ऽ || १ १ १ १ | हा ा मो रि || ग ह ा री ऽ | ा ऽ ा ऽ ||

नी ध् प ऽ | १ १ १ १ || १ १ प प | ध् ऽ ऽ पम् || प ऽ ऽ म् | म् ऽ ऽ ऽ ||  
 न दि यां ऽ | १ १ १ १ || १ १ न दि | यां ऽ ऽ ऽ || का ऽ ऽ ऽ | न्हा ऽ ऽ ऽ ||

सा ऽ ग् ऽ | म् ऽ सारे ग्म् || ग् रे सा ा रे | सा ध् ऽ नी || १ १ सा सा | सारे ग् रे ग् म् ||  
 जा ऽ ये ऽ | ऽ ऽ हां ऽ ऽ || मो रि ा क | रो मो ऽ रि || १ १ पा र | का ऽ ऽ ऽ ||

म् म् ा रे | सा ध् ऽ नी || १ १ सा सा | सारे रे ग् म् म् प || पम् ा रे | सा ध् ऽ नी ||  
 ऽ न्हा ा क | रो मो ऽ रि || १ १ हां रे | का ऽ ऽ ऽ || ना ऽ ऽ क | रो मो ऽ रि ||

१ १ सा सा | सारे रे ग् म् म् प || प ध् प ा रे | सा ध् ऽ नी || सा १ १ १ | प ध् नी सा ||  
 १ १ हा रे | का ऽ ऽ ऽ || ऽ न्हा ा क | रो मो ऽ रि || पा र १ १ १ | का ऽ ऽ ऽ ||

रे ग् रे ा रे | सा ध् ऽ नी || सा १ १ १ | सारे ग् म् प ध् पम् || ग् रे सा ा रे | सा ध् ऽ नी ||  
 न्हा ऽ ऽ क | रो मो ऽ रि || पा र १ १ १ | का ऽ ऽ ऽ न्हा ऽ | मो ऽ रि ा क | रो मो ऽ रि ||

१ १ १ १ | साम् ग् प म् ध् पनी || ध् प म् रे सा रे | सा ध् ऽ नी || सा १ १ १ | १ १ १ १ ||  
 १ १ १ १ | का ऽ ऽ ऽ ऽ || न्हा ऽ ऽ ऽ क | रो मो ऽ रि || पा र १ १ १ | १ १ १ १ ||

पि ऽ प | प ऽ प ऽ || १ १ सा रे | ग् ग् ऽ म् || रे ग् रे ग् | ा सारे नी ऽ ||  
 १ रे ऽ क | न्हा ऽ या ऽ || १ १ न नं | जी के ऽ वो || छै ऽ या ऽ | ा दे ऽ खो ऽ ||

ॽ ऽ सा रे | १ ग् ऽ म् || रे ग् रे ग् | सा रे नी ऽ || ॽ ऽ सा रे | १ ग् म् ऽ ||  
 ॽ ऽ न नंद | १ जी ऽ के || छै ऽ या ऽ | अ रे हा ऽ || ॽ ऽ न नंद | १ जी के ऽ ||

रे ग् रे ग् | सा रे सा ऽ | ऽ ऽ प ऽ | प प ऽ प | प ध् प ध् | <sup>म्</sup> म् प ग् ।  
 छै ऽ या ऽ | दे ऽ खो ऽ | ऽ ऽ य ऽ | शो दा ऽ दु | लै ऽ या ऽ | का ऽ न्हा ।

। प प ऽ | प ऽ ऽ नी | ध् नी ध् नी | प ध् म् । | ।। म् ऽ | म् म् ऽ म् |  
 । य शो ऽ | दा ऽ ऽ दु | लै ऽ या ऽ | का ऽ न्हा । | ।। दा ऽ | उ जी ऽ के |

रे म् प नी | ध् प म् ऽ | म् प म् ।, म् प | <sup>म्</sup> ग् ग् ।, <sup>ग्</sup> ग् म् | <sup>नी</sup> रे रे ।, रे | सा ध् ऽ नी |  
 मै ऽ ऽ ऽ | ऽ ऽ या ऽ | मो ऽ रा ।, क ऽ | न्हे या ।, क ऽ | न्हे या ।, क | रो मो ऽ रि |

।। सा सा | सा रे ग् म् | <sup>नी</sup> ग् रे ग् । रे | सा ध् ऽ नी | सा ।।। | ।। सा सा |  
 ।। पा र | हारे मो रि | नै ऽ या । के | रो मो ऽ रि | पार ।।। | ।। ए रि |

ग् सा म् ग् | ध् म् नी ध् | सां नी नी ध् पम् | <sup>नी</sup> ग् रे सान्नी सा ऽ | रे सा रे | सा ध् ऽ नी |  
 नै ऽ ऽ ऽ | ऽ ऽ ऽ ऽ | ऽ ऽ ऽ ऽ | ऽ ऽ या ऽ | नै या । क | रो मो ऽ रि |

सा ।।। | सारे ग् म् प ध् पम् | <sup>नी</sup> ग् रे सा रे | सा ध् ऽ नी | सा ।।। | ।।। |  
 पार ।।। | का ऽ ऽ ऽ न्हा | मो ऽ री । क | रो मो ऽ रि | पार ।।। | ।।। |

। प ऽ प | प ध् प ऽ | प ऽ ऽ ऽ | ऽ ऽ ऽ ऽ | ग् ऽ पा | ।।।। | म् म् प प |  
 । है ऽ को | मो रि नै ऽ | या ऽ ऽ ऽ | ऽ ऽ ऽ ऽ | नै ऽ या । | ।।।। | हारे मो रि |

ध् नी ऽ ऽ | ऽ ऽ ऽ ऽ | ऽ ऽ ऽ ऽ | ऽ ऽ ऽ ऽ | ऽ ऽ ऽ ऽ | ऽ ऽ नी ध् प ध् | नी ।।।। |  
 नै ऽ ऽ ऽ | ऽ ऽ ऽ ऽ | ऽ ऽ ऽ ऽ | ऽ ऽ ऽ ऽ | ऽ ऽ ऽ ऽ | ऽ ऽ ऽ ऽ | या ।।।। |

।।।। | प ध् नी सां | (नी) ऽ ऽ ध् प | ध् ऽ प म् | ।।।। | म् ऽ प ध् |  
 ।।।। | हारे मो रि | नै ऽ ऽ ऽ | या ऽ ऽ ऽ | ।।।। | हा ऽ रे ऽ |

नी ऽ प ध् | प ऽ ऽ ऽ | ऽ ऽ ऽ ऽ | ऽ ऽ ग् ऽ | प ।।।। | ।। प प |  
 ऽ ऽ मो ऽ | री ऽ ऽ ऽ | ऽ ऽ ऽ ऽ | ऽ ऽ नै ऽ | या ।।।। | ।। मो रि |

ध् ध् ऽ ध् | ध् ध् प म् | रे म् प नी | ध् प म् ग् | ध् प ऽ म् | ग् म् प ध् ऽ प |  
 नै या ऽ क | रो मो ऽ रि | पा ऽ ऽ रू | रे ऽ वो ऽ | का न्हा ऽ मो | रि का ऽ ऽ न्हा |

ग् सा  
 म् रे ऽ नी | सा ।।।। | सा सा ऽ रे | <sup>नी</sup> सा ध् ऽ नी | सा । सा सा | ग् सा प म् |  
 वो का ऽ न्हा | रे ।।।। | का न्हा ऽ क | रो मो ऽ रि | पार । मो रि | नै ऽ ऽ ऽ |

नी  
 ध् प म् ग् | रे सा सानी सा || सा सा । रे | सा ध् ऽ नी || सा । । । । । । सा रे ||  
 ऽ ऽ या ऽ | ऽ ऽ मो ऽ रि || का न्हा । क | रो मो ऽ रि || पार । । । । । । हा रे ||  
 म् म् । । । | ग्म् ग् रे सा रे || म् म् । । । | ग्म् पम् सा रे || म् म् । । । | सा रे म् प ||  
 नै या । । । | हां ऽ ऽ मो रि || नै या । । । | रे ऽ ऽ मो रि || नै या । । । | हा रे मो रि ||

नी  
 प् ध् नीसां नीध् पम् | ग् रे ऽ प । || ध् प । रे | सा ग् ऽ ग् || रे सा । रे | सा ध् ऽ नी || सा  
 नै ऽ ऽ ऽ ऽ | ऽ ऽ या । || क रो । क | रो मो ऽ रि || नै या । क | रो मो ऽ रि || पार  
 = (सम)

**नोटः**—नोटेशनमें । यह एक मात्रा विश्रान्ति चिन्ह है. जितने चिन्ह लिखा हो  
 उतने कालतक गायन की क्रिया रोकना, अर्थात् यह चिन्ह के पूर्वकाहि अक्षर लंबांना नहीं.

## बागेश्री बहार-त्रिताल (मध्य लय)

ऋत बसंत में अपानि उमंगसों पि ढुंन बनमें निकसी घरसों.  
 मिले तो लाला घर बिठलाऊं, पाग बंधाऊं पीरी सरसों.

म्  
 ग् म् प ग् | म् ग् रे सा || रे सा नी ध् नी | सा म् म् ऽ | म् नी ध् नी | सां सां सां ऽ ||  
 ऋ त ब सं | ऽ त में ऽ || अ प नि उऽ | मं ग सों ऽ | पि ढूं ऽ न | ब न में ऽ ||  
 ° ३ = (सम) २ ° ३

ग् अंतरा  
 नी ध् प ध् नी | ध् म् ग् रे | म् नी ध् नी | सां ऽ सां ऽ ||  
 नि क सीऽ ऽ | ध् र सों ऽ | ऋत... उमंगसो | मि ले ऽ तो | ला ऽ ला ऽ ||  
 = २ ° ३

सां सां  
 नी सां रे सां | नी सां नी ध् | म् नी ध् नी | रे नी सां सां ऽ || रे ग् रे सां |  
 ध र बि ठ | ला ऽ ऊं ऽ | मि ले ऽ तो | लाऽ ऽ ला ऽ || ध र बि ठ ||  
 = २ ° ३ =

नी प  
 सां नी सां नी ध् | ध् ऽ ध् ध् | नी ध् प ध् सां || ग् ग् ग् ग् म् | रे रे सा ऽ |  
 लाऽ ऽ ऊं ऽ | पा ऽ ग् बं | धा ऽ ऊं ऽ ऽ || पी ऽ री ऽ | सर सों ऽ | ऋत बसंत में  
 २ ° ३ = ३

## बागेश्री की तानें.

नीसा ग्म् धनी सां । नीध म्ग् रेसा नीसा । ऋत बसंत में ॥ नीसा ग्म् धनी सारें ।  
 = २ =

सांनी धम् ग्रे सा । ऋत बसंत में ॥ ग्म् धनी सारें गुरें । सांनी धम् ग्रे सा । ऋत बसं  
 २ = २

ऽ त, ग्म् धनी ॥ सां, धनी सांम् गुरें । सांनी धप म्ग् रेसा । ऋत .... उमंगसो  
 ३ = २

नीसा म्ग्, रेग् म्ध, म्ध सांनी, धनी सारें, ॥ नीसां म्ग् रेंसां नीसां । नीध पम् ग्रे सा । ऋत...अपनि उ  
 ० ३ = २

नीसा साग् ग्म् म्ध । धनी नीसां रेंसां सांनी । नीध धम् म्ग् ग्रे ॥ रेसा, नीसा ग्म् धनी ।  
 २ ० ३ =

सांनी धप म्ग् रेसा । ऋत .... उमंगसो । सांनी रेसा ग्रे म्ग् । धम् नीध सांनी रेंसां ॥  
 २ ० ३

धनी सांम् गुरें सांनी । धप म्ग् रेसा नीसा । ऋत .... उमंगसो । रेरे सासा, म्म् ग्ग्, ।  
 = २ ०

धध म्म्, नीनी धध, ॥ सांसां नीनी, रेंरें सांसां, । नीध म्ग् म्ग् रेसा । ऋत .... उमंगसो  
 ३ = २

साम् ग्म्, सानी धनी, म्सां नीसां, नीरें सांम् ॥ ग्म् रेंग् सारें नीसां । नीध म्ग् म्ग् रेसा । ऋत...उमंगसो  
 ० ३ = २

नीसा ग्म् धनी धम्, । ग्म् धनी सांनी धम्, ॥ ग्म् धनी सारें सांनी । धम्, ग्म् धनी सांम् ।  
 ० ३ = २

गुरें, सारें सांनी धम्, । ग्म् धनी, म्ध नीसां, ॥ धनी सांम् गुरें सांनी । धप म्ग् रेसा नीसा । ऋत बसंतमें  
 ० ३ = २

रेसा नीसा, म्ग् रेग्, । धम् ग्म्, नीध म्ध, । सांनी धनी, रेंसां नीसां, । गुरें ऽरें सां, सांनी ॥  
 = २ ० ३

ऽनी ध, धम् ऽम् । ग्, ग्रे ऽरे सा । ऋत .... उमंगसो । नीसा ग्म् धनी सारें । गुरें म्ग् रेंसां, रेंसां ॥  
 = २ ० ३

गुरें सांनी, सांनी रेंसां । नीध, नीध सांनी धम्, । धम् नीध म्ग्, म्ग् । म्ग् रेसा, नीसा साग् ॥  
 = २ ० ३

ग्म् म्ध धनी नीसां । म्ग् रेंसां नीध पम् । ग्म् नीध सांनी रेंसां । रें रेंसां नीध पम् ॥

सां सांन्नी धप म्ग् । न्नी न्नीध म्ग् रेसा । ऋत ... उमंगसों । सारे न्नीसा ऽ, म्ग् । ग्रे सारे न्नीसा ऽ, ॥  
= २ ० ३

ग्म् धन्नी सारें न्नीसां । ग्मं ग्रें सांन्नी धप । म्ग् रेसा न्नीसा, म्ग् । धन्नी सारें सांन्नी धप ॥  
= ५ ० ३

म्ग् रेसा न्नीसा, म्ग् । धन्नी सांन्नी धप म्ग् । रेसा न्नीसा, म्ग् । धन्नी धप म्ग् रेसा ॥  
= २ ० ३

न्नीसा, म्ग् धप म्ग् । रेसा न्नीसा, म्ग् ग्रे । सा, ऋत व सं । ऽ त में ऽ ॥ अपनि उमंगसों  
= २ ० ३

**अंतरो,** मिले तो लाला

सांन्नी धप म्ग् रेसा । न्नीसा ग्म् धन्नी सां । मिले तो लाला ॥ सारें सांन्नी धप म्ग् ।  
= २ =

रेसा, म्ग् धन्नी सां । मिले तो । ला ऽ धन्नी सारें ॥ ग्रें सांन्नी धप म्ग् । रेसा, म्ग् धन्नी सां ।  
२ ३ = २

मिले तो लाला ॥ न्नीसां म्ग् रेंसां न्नीध । पम् ग्म् धन्नी सां । मिले तो लाला ॥  
= २

धन्नी सां, ध न्नीसां, धन्नी । सारें सांन्नी धप म्ग् । रेसा न्नीसा, सान्नी रेसा । ग्रे म्ग् धम् न्नीध ॥  
= २ ० ३

सांन्नी रेंसां, धन्नी सारें । ग्रें सांन्नी धन्नी सां । मिले तो लाला ॥ म्ग् रेंसां न्नीध पम् ।  
= २ =

ग्रे सान्नी, धन्नी सारे । ग् ऽ, रेग् म्ध । न्नी ऽ, धन्नी सारें ॥ गं रेंसां, रें सांन्नी, ।  
२ ० ३ =

सां न्नीध, न्नी धम्, । ध म्ग्, म् ग्रे, । ग् रेसा, न्नीसा ग्म् ॥ धन्नी सां, ग्म् धन्नी ।  
२ ० ३ =

सां, ग्म् धन्नी सां । मिले.... लाऊं । सांन्नी न्नीध धप पम् । म्ग् ग्रे सा ऽ, ॥ रेंसां सांन्नी न्नीध धप ।  
२ ० ३ =

पम् म्ग् ग्रे सा । ऽ, म्ग् ग्रे रेंसां । सांन्नी न्नीध धप पम् ॥ म्ग् ग्रे सा ऽ, ।  
२ ० ३ =

ग्म् म्ध धन्नी सां । मिले तो लाला ॥ रेंग् रेंसां रेंसां, न्नीसां । न्नीध न्नीध, म्ध म्ग् ।  
२ = २

म्ग्, रेग् रेसा रेसा, । सान्नी सा, म् ऽम्, म्ग् ॥ म्ग्, ध ऽध, धम् धन्नी । ऽन्नी, न्नीध न्नीसां ऽसा ।  
० ३ = २

मिले...लाऊं

## बोलताने.

सां नी ऽ ध | म् ग् रे सा || नीरें सां नी धसां नी ध | म् म् ध नी | सां ऽ नी ऽ |  
 ऋ त ऽ ब | सं त में ऽ || अऽ ऽ पऽ ऽ | नि उ मं ग | सां ऽ पि ऽ |  
 ० ३ = २ ०

ध ऽ म् ध || सां नी ध म् | गु रे सा ऽ | सा म् ऽ म् | ध ध ध ध ||  
 हूं ऽ ब न || में नि क सि | ध र सां ऽ | ऋत ... उमंगसो | ऋ त ऽ ब | सं त में ऽ ||  
 ३ = २ ० ३

म् ध ऽ ध | नी नी नी नी | नी ध ऽ म् | ध नी सां ऽ || ग् ग् ऽ म् | रे रे सा ऽ |  
 अ प ऽ नि | उ मं ग सां | पि हूं ऽ न | ब न में ऽ || नि क ऽ सि | ध र सां ऽ |  
 = २ ० ३ = २

नीरें सां नी धसां नी ध | म् ध नी सां | सां ऽ ध म् | ऽ नी ध ऽ | सां नी ऽ ध  
 ऋत .. उमंगसो | ऋ ऽ ऽ तऽ ऽ | ब सं त में || ऽ ऽ अ ऽ | ऽ प ऽ ऽ | नि ऽ ऽ उ  
 ० ३ = २ ०

म् ग् रे सा || ग् म् ग् ध ध | पध पध नी नी | नी ध ऽ म् | ध नी सां ऽ ||  
 मं ग सां ऽ || पिऽ ऽ हूं न | बऽ ऽ न में | नि क ऽ सि | ध र सां ऽ ||  
 ३ = २ ० ३

ग्म् धनी सां ऽ | नीध पम् ग् रे सा | सांरें सां, नी सां नी, धनी |  
 आऽ ऽ ऽ ऽ | ऽ ऽ ऽ ऽ | ऋत ... उमंगसो | ऋ ऽ ऽ त ऽ बऽ |  
 = २ ०

ध, प धप, म्प म्, ग् || म्, रे ऽ ऽ | सारे सा, म्, ग्, म् | ध, प धनी, धनी सां |  
 ऽ सं ऽ तऽ ऽ में || ऽ ऽ ऽ ऽ | अऽ ऽ प ऽ निऽ | उऽ ऽ मं ऽ ऽ |  
 ३ = २ ०

सां सां ऽ ऽ || ध म् धनी सां | नीध पम् ग् रे सा | ग् रें रेंसां सां नी नीध |  
 ग सां ऽ ऽ || पि हूं न | नि क सीऽ ध र सां | ऋत बसंतमें || ऋ ऽ तऽ बऽ संऽ |  
 ३ = २ =

धप पम् म् ग् रे | सा ग्म् धनी सां | नीरें सां म् ग् रें सां || नीध पम् ग् रे सा |  
 तऽ मेंऽ अऽ पऽ | नी उऽ मंग सां | पि हूं ऽ न ब न में || नि क सीऽ ध र सां |  
 २ ० ३ =

ग्म् पग् म् ग् रेसा | ग्म् पग् म् ग् रेसा | ग्म् पग् म् ग् रेसा || (सम)  
 ऋत बसं ऽ त मेंऽ | ऋत बसं ऽ त मेंऽ | ऋत बसं ऽ त मेंऽ ||  
 २ ३

## बागेश्री - त्रिताल (विलंबित)

जावोजी जावो नंद कुवर घर, बोलो ना अब हम संग श्रीधर,  
जमुना तट पे आडोहे डोलत, रार करत मोसो धीठ लंगर,

सां रेंसांनी	धनी ऽधपध	॥ सां ऽ नी (ध)	सां नी ध ग्	म् ग् रे सा
जा ऽ	ऽ ऽवोऽजि	॥ जा ऽ वो ऽ	नं ऽ द् कु	व र ध र
३		= (सम)	२	०
रे सा नी ध	॥ नीध सा म् ग्	ग्म् नीध सां नी	ध म्ग् म्ग् रेसा	
वो ऽ लो ऽ	॥ नाऽ ऽ अब	हऽ मऽ सं ग	श्री ऽ ऽ धर	
३	=	२	०	

### अंतरा

म् नी	सां	म् नी
ग् म् ध नी	॥ सां नी सां ऽ	नी सां रें सां
ज मु ना ऽ	॥ त ट पे ऽ	आ ऽ डो हि
३	=	२
		०
		३

धनीसां	नी नीसांरें	सां	नी सां नीसां रेंसां	नीसां (सां) नी ध	म् नी
तऽऽऽ ट पेऽऽऽ ऽ	॥ आ ऽ डोऽ हिऽ	डोऽ ऽ ल त	॥ ज मु ना ऽ		
=		२	०		३

सां म्ग् रें सां	॥ रें सां नी ध	म्धनीसां नीधपम्	गुरेसांनी	सासा	धसांनीनी ऽ धनी धऽपध
र तऽ मों सो	॥ धी ऽ ऽ ट	लंऽऽऽ ऽ	ऽ	गर	जाऽऽऽ ऽ ऽ वोऽऽजि
=	२	०			३

म्धनीसां नीधपध नीधपम् गुरेसां । सांरेसांनी धनीसाम् ग्म्धनी सांऽधनी ।

सांरेसांनी धपम्ग् म्ग्ग्ग् रेसांनीसा । जावोजि ॥ सां नीधपम् गुरेसांनी साऽ,सांरे ।

सांनीधनी साम्ऽम् ग्धऽध म्नीऽनी । धसांसां नीधपम् गुरेसांनी सा । जावोजि ॥

ग्म्धध म्धनीनी धनीसांसां नीनीधध । म्नीधसां नीरेसांनी धसांनीध पम्गुरे ।

ग्म्धनी सांऽनीध पम्गुरे सांनीसाऽ । जावोजि ॥ म्ऽम्ग् ऽग्धध, म्ऽम्नी ऽनीधध, ।



सांसांनी ऽनीसांसां, धनीसारें सांनीधऽ, । मनीधसां ऽसांनीध पमग्रे सान्नीसाऽ । जावोजि ॥  
 २  
 सामग्रे सान्नीधनी सामऽम् गधऽध । ग्मधनी सारेंसांनी धसांऽसां नीधपम् ।  
 =  
 ग्मधनी सारेंग्रें सांनीधप मग्रेसा । जावोजि ॥ रेरेसासा ममग्ग् धधम् नीनीध ।  
 ०  
 सांसांनीनी रेंसांसां मंमं, मं मंरेंसां; । नीनीध, नी नीधमग्; ममग्, म् मग्रेसा । जावोजि .. धर ।  
 २  
 नीसामग् रेग्मध मधसांनी धनीसारें ॥ नीसांमं रेंसांनीसां नीऽनीध ऽधधनी ।  
 ३  
 सांसांनी ऽनीधध, गऽग्नी ऽनीधध, । मऽमसां ऽसांनीध, गऽमग् ऽरेसाऽ । जावोजि ॥  
 २  
 सारेसामऽम् ग्मग्ग्धध मधमनीऽनी धनीधसांऽसां ।  
 =  
 सारेंसांमंऽग् रेंसांरेंसांनीध मनीधसांनीध मगमग्रेसा ।  
 २  
 नीधनीधनीसा ग्मधनीसामं ग्रेंसांनीधप मग्रेसान्नीसा ।  
 ०

### अंतरा. जमुना... डोलत

मधनीसां नीध, मध नीसारेंसां नीसांनीध, ॥ मधनीसां रेंग्रेंसां नीसांनीध, मधनीसां ।  
 ३  
 =  
 मंमंग्रें सारेंनीसां नीधमग् मग्रेसा, । नीसामग् धनीसांऽ गऽमग् मग्रेसा । जमुना  
 २  
 धनीसांसां धनीसांसां धनीरेंरें धनीधध । मधनीसां धनीसांऽ धनीसामं ग्रेंसांऽ ।  
 =  
 सारेंसांनी धसांनीध मधनीसां नीधपम् । जमुना ॥ सां नीधपम् ग्रेसान्नी साऽमम् ।  
 ०  
 =  
 ग्मधध मधनीनी धनीसांसां मंमंग्रें । सांनीरेंसां ग्रेंसांनी रेंसांनीसां नीधपम् । जमुना  
 २  
 सांऽनीसां ऽसांनीध, नीऽधनी ऽनीधम्, । सांऽनीरें ऽसांग्रें सांनीमं रेंसांनीसां ।  
 =  
 धनीसांनी धमग्ग् मनीधसां नीधपम् । जमुना... आडोहि । रेंसांरेंसां नीधनीध मगमग् रेसारेसा ।

.नीसाग्म्, साग्म्,साग्म्,रेग् म्ध,ग्म् ॥ ध,ग्म्ध; ग्म्धनी, म्धनी,म् धनी; म्ध ।

३

=

नीसां,धनी सां,धनीसां; म्ग्ग्ंसां नीनीधम् । ग्म्धग् म्ग्ग्ंसा, रेसान्नीध . म्धनीसा ।

२

ग्म्धनी सांS,ग्म् धनीसांS, ग्म्धनी ॥ तटपे...डोलत । म्ग्ग्ंरे ग्ग्ंसां ररेसांनी सांसांनीध ॥

३

३

नीनीधम् धधम्ग् म्ग्ग्ंरे ग्ग्ग्ंसा, । नीसासाग् म्ग्ग्ं धनीनीसां सांम्ग्ग्ं ।

=

२

ग्ग्ंसां सांनीनीध धधम्ग् ग्ग्ग्ंसा । नीS,धनी साS,ग्म् धS,म्ध नीS,धनी ॥ तटपे, इ०

०

बोलताने. जावोजि जावो

म्ग्ग्ंम्ग्ं	म्ग्ग्ंसा	ररेसांरे	रेसांनीध	म्ग्ग्ंम्ग्ं	म्ग्ग्ंसा	साम्ग्ग्ं	म्ग्ग्ंध	जावोजि
जाSबोजि	जाSबोS	नंSदकु	वरधर	बोSलोना	Sाअब	हमसंग	श्रीSधर	

२

०

नीसांम्ग्ं	रेग्ंसांरे	नीसांधनी	पधम्ग्	ग्ग्ंरेग्	सारेन्नीसा	धनीपध	म्ग्ग्ंसा	जावोजि
जाSSS	बोSजीS	जाSबोS	नंSदS	कुSवS	रSधर	बोSSS	लोSनाS	

=

२

ग्ग्ंधनी	सांरेग्ं	सांनीधप	म्ग्ग्ंसा	जावोजि...धर	रेरेसासा	म्ग्ग्ं	नीनीधध	सांसांनीनी
अSबS	हSमS	संSगS	श्रीSधर		जाSबोS	जिSजाS	बोSनंS	दSकुS

०

३

रेरेसांसां	म्ग्ग्ंम्ग्ं	म्ग्ग्ंरे	ग्ग्ंसांसां	रेसांनीनी	सांनीधध	म्ग्ग्ंरे	ग्ग्ंसासा	जावोजि
वSरS	धSरS	बोSलोS	नाSSS	हSमS	संSगS	श्रीSSS	धSरS	

=

२

नीसांग्ग्ं	धनीसांरे	सांनीधप	म्ग्ग्ंसा	सान्नीसा	म्ग्ग्ं	ग्ग्ं	धध	म्ग्ग्ं	नीधनी	धध	सांनीसां
बोSलोS	नाSअब	हमसंग	श्रीSधर	जाSS	बोSजि	जाSS	बोSS	नंSS	दSकु	वSर	धSर

०

३

=

नीधनी	ग्ग्ं	सांनीसां	म्ग्ं	ग्ग्ं	सांनीध	म्ग्ग्ं	रेसासा	जावोजि, इ०
बोSS	लोSS	नाSS	अSब	हSम	संSग	श्रीSS	धSर	

२

## दुर्गा—त्रिताल (मध्य लय)

छबिले छेल खेले होरी, आज रंग है बिरजमें कैसे की सखी.

बिंदुरे बन की कुंज गलिन में, कोई सावरी कोई गोरी.

सां ध प म् | रे सा सा रे || प S S S | रेम् पध म्प ध | ध S प म् | रे सा रे ध ||  
 छ बि ले छे | S ल खे S | ले S S S | हो S S री S S | आ S ज रं | S ग है S ||  
 °                    ३                    = (सम)                    २                    °                    ३

सा S S ध | प ध ध सां | रें S S सां | रें सां ध प || म् प प ध | ध सां धप म्म |  
 S S बि | रज में S | S S S कै | से की S स || खी S S S | S S S S |  
 =                    २                    °                    ३                    =                    २

छबिले...होरी

## अंतरा.

सां S ध S | ध म् प ध || सां S S S | धसां रें ध सां S | सां S ध S | ध म् प ध ||  
 बिं S द्रा S | रे S बन || की S S S | S S S S | बिं S द्रा S | रे S बन ||  
 °                    ३                    =                    २                    °                    ३

सां S S सां | S ध सां रें | म् रें S S | सां म् S रें || सां सां ध प ध | सां धप म् रे धसा |  
 की S S कुं | S ज ग लि | न में S S | को ई S सा || व री को ई S | गो S री S S |  
 =                    २                    °                    ३                    =                    २

छबिले छेल खेले

प S S S | म्प ध S S | S S, म् S || रे S S, सा | रे ध सा S | छबिले छेल खेले.  
 २                    °                    ३                    =                    २

रेम् पध म्प ध | म् S रे S, | सा रे म्प || ध म् S रे | सा रे ध सा | छबिले छेल खेले  
 २                    °                    ३                    =                    २

रे म्प ध सां  
 म्प धसां पध सां | S S S S | S S, रें ध || सां S S S, | सा रे म्प | ध S सां S |  
 २                    °                    ३                    =                    २                    °

ध S म् S || रे S S, सा | रे ध सा S | छ बि ले छे | S ल खे S || ले S S S |  
 ३                    =                    २                    °                    ३                    =

म्प S म्प ध | छबिले छेल खे || सारे म् ज रे, रेम् | प S म्, म्प ध | छबिले छेल खे  
 २                    =                    २

सा रे म् प । ध S, म्प ध । छबिले छेल खे ॥ रेसा S्म् रे, पम् । S्ध प, S्तां धसां ।  
 = २ = २

छबिले छेल खे ॥ रेसा मूरे पम् धप । सांध सारें सांध सां । छबिले छेल खे ॥ ध सा रे म् ।  
 = २ =

प ध म्प ध । छबिले छेल खे ॥ म्प धसां पध सां । म्प धसां पध सां । छबिले छेल खे  
 २ = २

सासा रेरे म्म् पप । धध सांसां रें रें सां । छबिले छेल खे ॥ सासा सासा रेरे रेरे ।  
 = २ =

म्म् म्म् म्प ध । छबिले छेल खे ॥ सारे रेम् म्प पध । धसां सारें सांध सां । छबिले छे  
 २ = २

रेम् पध म्प धसां ॥ पध सारें म्म् रेंसां । धप म्म् रेसा धसा । छबिले छेल खेले  
 ३ = २

धध पध पम् रेम् । पध म्प ध S, । सां धसां धप म्प ॥ धसां पध सां S, । रें सांध, सां धप, ।  
 २ ० ३ = २

ध पम्, प मूरे, । म् रेसा, रे सा ॥ सारे म्प धसां धप । रेम् पध म्प ध । छबिले छेल खेले  
 ० ३ = २

म्प धसां पध सां । पध सारें म्पं म्पं रें रें । सारें सांध पध सां ॥ रें रें सांध पध ।  
 २ ० ३ =

सां सां धप म्प । ध ध पम् रेम् । प प मूरे सारे ॥ म् म् रेसा धसा । रे रे रेम् पध ।  
 २ ० ३ = २

म्प ध S, म् | रे सा सा रे || प S S S | म्प S्म् म्प ध | सां धसां धप म् | रे सा रे प ||  
 ० छे | S ल खे S | ले S S S | होS S रीS S | छ बिS लेS छे | S ल खे S ||  
 ३ = २ ० ३

सां धसां धप म् | रे सा रे प | सां धसां धप म् | रे सा सा रे || प S S S |  
 छ बिS लेS छे | S ल खे S | छ बिS लेS छे | S ल खे S || ले S S S |  
 = २ ० ३ =

रेम् पध म्प ध | सां ध S प | म् रे सा रे || प S S S | ध S ध S | म् रेसा प मूरे |  
 होS S रीS S | छ बि S ले | छे ल खे S || ले S S S | हो S री S | छ S बि S |  
 २ ० ३ = २ ०

ध पम् सां S || सां S S सांसां | पध सांसां धप म्म् | सारे म्प रेम् पध |  
 ले S छे S || ल S S खेले | होS S रीS S | छबिले...होरी | छS S बिS S |  
 ३ = २ १

मू प धसां पध सां || सां ऽ रेंसां ध | सां ऽ ऽ पध | सा रे मू, रे |  
 लेऽ ऽ छेऽ ऽ || ल ऽ खेऽ ऽ | ले ऽ ऽ होरी | छबिले...होरी | छ बि ले छे |  
 ३ = २ ०

मू प, मू प || ध, प ध सां | ऽ सां ऽ ऽ |  
 ल खे ले हो || री आ ऽ ऽ | ऽ ज ऽ ऽ | छबिले...होरी  
 ३ = २

### अंतरा. बिंद्रा रे बनकी

सां ऽ ऽ ऽ | ऽ ऽ ऽ ऽ || सारे मू प धसां पध | सां ऽ ऽ ऽ, | ध ऽ ऽ ऽ | मू ऽ रे ऽ ||  
 ० ३ = २ ० ३

ऽ ऽ ऽ, सा | रे ध सा ऽ | बिंद्रा रे बनकी | रे मू पध मू प ध | ऽ ऽ, मू ऽ || रे ऽ ऽ, सा |  
 = २ ० ३ =

रे ध सा ऽ | बिंद्रा रे बन || ध पध पध पम् | रे मू पध मू प ध | मू ऽ रे ऽ | ऽ ऽ ऽ ऽ ||  
 २ = २ ० ३

सा रे मू प | ध सां ध ऽ | ऽ ऽ ऽ, मू | रे ऽ ऽ ऽ || ऽ ऽ ऽ, सा | रे ध सा ऽ |  
 = २ ० ३ = २

बिंद्रा रे बन || सां ऽ ऽ, धप | मू प धसां पध सां | बिंद्रा रे बन || सां रें सां, सां रेंसां धप |  
 = २ =

धसां धप मू प धसां | बिंद्रा रे बन || सांसां धसां धप मू प | धसां धप मू रे सा | बिंद्रा रे बनकी  
 २ = २

सांध ऽप धमू रेसा, | मू मू रे मू रे रे, धध || पध पम्, सांसां धसां | धप, रें रें सां रें धसां |  
 ० ३ = २

बिंद्रा रे बनकी | सांसां धप मू मू, रें रें | सांसां धप मू मू, मूं मूं || रेंसां धप मू मू रेसा, |  
 ० ३ =

रे मू पध मू प धसां | बिंद्रा रे बनकी | पध सां, प धसां, पध | सांसां धमू रेसा धसा; ||  
 २ ० ३

धसां रें, ध सां रें, धसां | रेंसां धप मू रे धसा; | सां रें मूं, सां रें मूं, सां रें | मूं ऽ रें मूं रेंसां ||  
 = २ ० ३

धप मू रे सारे धसा; | मू रे पम् धप सां | बिंद्रा रे बन || सां ध धमू पध | सां ऽ, सां ध |  
 = २ = बिं द्रा रेऽ बन की ऽ बिं द्रा |  
 ३

धम् पध सां ऽ सां ध धम् पध ॥ सां ऽ ऽ ऽ ऽ ऽ ऽ ऽ सां धप म्प वसां |  
 रेऽ बन की ऽ बिं द्रा रेऽ बन ॥ की ऽ ऽ ऽ ऽ ऽ ऽ ऽ बिं ऽ ऽ ऽ |

पध सां सां ऽ सां ध ऽ प सां ध ऽ प सा रे ऽ म्प प ध ऽ प सा रे ऽ म्प |  
 ऽ द्रा रे ऽ बन ऽ की बन ऽ की कुं ज ऽ ग लिन ऽ में कुं ज ऽ ग |

प ध ऽ प सां ध ऽ रे सां ध प ऽ ध प ऽ ध प म्प रे सा |  
 लिन ऽ में को ई ऽ सा ऽ व री ऽ को ई ऽ गो ऽ ऽ री ऽ बिंद्रारे बनकी |

सारे म्प रे, रेम्प प म्प, म्प ध ऽ प, पध सां ऽ ध सां ऽ ऽ धसां रेध सां ऽ |  
 बीऽ ऽ ऽ, द्राऽ ऽ ऽ, रेऽ ऽ ऽ, बऽ ऽ ऽ ॥ की ऽ ऽ ऽ ऽ ऽ ऽ ऽ |

सा रे म्प, रे म्प, म्प प ॥ ध, प ध सां ध सां ऽ ऽ रे सां ऽ रे सां ध प ध ॥  
 बिं द्रा रे, ब न की कुं ज ॥ ग लिन में ऽ ऽ ऽ को ई ऽ सा ऽ ऽ व रि ॥

ध प ऽ ध प म्प रे सा सा रे रे म्प म्प प ध ध सां सां रे |  
 को ई ऽ गो ऽ ऽ री ऽ बिंद्रारे बन ॥ बिं ऽ द्रा ऽ रे ऽ ब ऽ न ऽ की ऽ |

रे सां सां ध ध प प म्प म्प प ध सां ध ऽ रे सां ध प प ध प ऽ ध |  
 कुं ऽ ज ऽ ग ऽ लि ऽ न ऽ में ऽ को ई ऽ सा ऽ ऽ व रि ॥ को ई ऽ गो |

म्प रे ध सा सां रिं सां धसां धसां पध पध म्प म्प रेम्प रेम्प सारे धसा |  
 ऽ ऽ री ऽ बिंद्रारे बन ॥ बिंऽ द्राऽ रेऽ बऽ नऽ कीऽ कुंऽ जऽ गऽ लिऽ नऽ मेऽ |

साम्प रेप म्प वसां धरे सांम्प रेम्प सांरे धसां पध म्प रेम्प सारे धसा, रेम्प पध |  
 कोऽ ऽ ईऽ साऽ वंऽ रीऽ कोऽ ऽ ईऽ ऽ गोऽ ऽ रीऽ ऽ ऽ ऽ |

म्प सां ऽ, धप म्प, म्प धसां पध सां; धप म्प, म्प धसां पध सां; धप |  
 ऽ ऽ बिंऽ द्राऽ रेऽ बन की, बिंऽ द्राऽ रेऽ ऽ बन की, बिंऽ |

म्प, म्प धसां पध सां  
 द्राऽ रेऽ ऽ बन की  
 = (सम)

## सूर मल्लार—त्रिताल (मध्य लय)

बादरवा बरसन आये, न्हानी न्हानी बुंदन गरज गरज चहूं और बिजली चमकत,  
कोयल की कूक सुनत, हूक उठत, छतियां पडत,  
कल न पडत पिया बिन पपिया पियु पियु करत.

मू ध प मू | रे सा नी सा || सां ऽ नी ध | मू प प ऽ | मू ध प मू | रे सा नी सा ||  
बा द वी ब | र स ऽ न || आ ऽ ऽ ऽ | ऽ ऽ ये ऽ | बा द वी ब | र स ऽ न ||  
० ३ = (सम) २ ० ३

(सां) ऽ नी ध मू प | नी ध प ऽ | मू ध प मू | रे सा नी सा || सां ऽ ऽ ऽ | नी ध मू प |  
आ ऽ ऽ ऽ | ऽ ऽ ये ऽ | बा द वी ब | र स ऽ न || आ ऽ ऽ ऽ | ऽ ऽ ऽ ऽ |  
= २ ० ३ = २

प ऽ ऽ रे | रे रे ऽ मू || रे मू रे सा | रे मू रे मू | प प प नी | ऽ सां ऽ सां ||  
ये ऽ ऽ न्हा | नी न्हा ऽ नी || बुं ऽ द न | ग र ज ग | र ज च हूं | ऽ औ ऽ र ||  
० ३ = २ ० ३

रें रें नी सां | नी ध मू प | मू ध प मू | रे सा नी सा || सारें सां नी ध प | मू प प ऽ |  
बि ज ली ऽ | च म क त | बा द वी ब | र स ऽ न || आ ऽ ऽ ऽ | ऽ ऽ ये ऽ |  
= २ ० ३ = २

(अंतरा)

मू ध प मू | रे सा नी सा || सां ऽ ऽ ऽ | नी ध मू प | प ऽ ऽ ऽ | मू प ऽ नी ||  
बा द वी ब | र स ऽ न || आ ऽ ऽ ऽ | ऽ ऽ ऽ ऽ | ये ऽ ऽ ऽ | को य ऽ ला ||  
० ३ = २ ० ३

प प नी सां | सां सां सां सां | नी सां सां सां | सां सां प नी || प नी सां सां | प नी प नी |  
ऽ की कू ऽ | क सु न त | हू ऽ क उ | ठ त छ ति || यां प ट त | क ल न प |  
= २ ० ३ = २

सां सां रें सां | नी ऽ प रें || सां रें नी सां | प नी मू प | मू ध प मू | रे सा नी सा ||  
ढ त पि या | बि ऽ न प पि || या पि यु पि | यु क र त | बा द वी ब | र स ऽ न ||  
० ३ = २ ० ३

मू ध प मू | रे सा नी सा | मू ध प मू | रे सा नी सा || सां ऽ नी ध | मू प प ऽ |  
बा द वी ब | र स ऽ न | बा द वी ब | र स ऽ न || आ ऽ ऽ ऽ | ऽ ऽ ये ऽ |  
= २ ० ३ = २

आलाप.

सा S S S, । रे<sup>३</sup> म् म् प ॥ नी<sup>३</sup> ध प S, । म् प म् रे । S S, सा S, । नी<sup>३</sup> नी प म् ॥  
० = २ ० ३

रे S S S, । सा रे सा S । बादरवा...आये । रे<sup>३</sup> म् म् प । नी<sup>३</sup> ध प S ॥ नी सां S S, ।  
= २ ० ३ =

रे सां नी S । म् नी ध प । S, म् प नी ॥ S प म् रे । S S, सा S । बादरवा...आये  
२ ० ३ = २

नी सा S S, । प नी सा S, ॥ रे S म् रे । S, प म् रे । S S, सा S, । नी<sup>३</sup> नी ध प ॥  
० ३ = २ ० ३

म् प म् रे । S S S S, । रे S सां S । नी S म् प ॥ नी<sup>३</sup> ध प S, । म् रे S सा ।  
= २ ० ३ = २

बादरवा...आ । सा रे नी सा । रे S S S, । नी<sup>३</sup> नी म् प ॥ ध म् प रे । S S S S, ।  
२ ० ३ = २

सां नी म् प । नी<sup>३</sup> ध प S, ॥ ध प म् रे । S S S S, । रे नी S म् । नी<sup>३</sup> ध प S, ॥  
० ३ = २ ० ३

म् रे प S, । म् रे S सा । बादरवा...आ । सा रे म् प । नी<sup>३</sup> ध प S, । म् प सां S ॥  
= २ ० ३

नी ध प S, । रे S सां S, । रे म् रे सां । रे नी म् प ॥ नी<sup>३</sup> ध प S, । ध प रे S, ।  
= २ ० ३ = २

रे सां नी म् । नी<sup>३</sup> ध प S, ॥ म् रे प S, । म् रे S सा । बादरवा बरसन आये  
० ३ = २

तानें.

म्रे पप नीनी पम् । रेरे सासा, सारे नीसा ॥ आ S S S । S S थे S । म्रे पप म्रे नीसा ।  
० ३ = २ ०

नीसा रेम् पनी म्प ॥ आये बादरवा बरसन ॥ सारे म्प नीसां रेसां । नीध पम् रेसा नीसा ।  
३ = २



बादरवा बरसन ॥ सारे म्प नीसां रेम् । रेसां नीध पम् रेसा । बादरवा बरसन ॥ नीसा रेम् पनी सारें ।  
= २ =

मंम् रेसां नीध म्प । बादरवा बरसन आये । म्प नीसा रेम् रेसा । रेम् पनी पम् पनी ॥  
२ ० ३

सारें मुरें सांनी सां । म्नी धम् पम् रेसा । बादरवा बरसन आये । रेरे सासा, म्म् रेरे ।  
= २ ०

सासा, पप म्म् रेरे ॥ सासा, नीनी पप म्म् । रेरे सासा, रेरे सांसां । नीनी पप म्म् रेरे ।  
३ = २ ०

सासा, मंम् रेरे सांसां ॥ नीनी म्प, नीनी धप, धप मुरे, पम् रेसा । बादरवा बरसन  
३ = २

नीसा रेसा रे म् । रेम् पम् प नी । पनी सांनी सां रे । नीनी डरे सारें नीसां ॥  
= २ ० ३

प नी प, पप डनी । पध म्प रे म्, म्म् डप म्प रेम् । रे सा, सारे नीसा ॥ आये बादरवा बरसन  
= २ ० ३

मुरे पम् नीप सांनी । रेसां मुरें सारें नीसां । पनी म्प नीनी धप । मुरे सासा, सारे नीसा ॥  
= २ ० ३

आये...बरसन ॥ नीसा, रेम् डम् प, पनी डनी सां, सारें । डरें म्, म्प डम् । रे, नीसां डनी प, ॥  
= २ ० ३

म्प डम् रे, नीसा । रेम् पनी पनी सारें । मंम् रेसां रेनी म्प । नीनी धप म्म् रेसा ॥ आये....बरसन  
= २ ० ३

रेरे सा, म् मुरे, पप । म्, नी नीप, सांसां नी, रे । रेसां, सारें नीसां पनी । म्प रेम् सारे नीसा, ॥  
= २ ० ३

रेम् प, रेम् पनी । सां, म्प नीसां रे । मंम् डरे सां, नीनी । डप प, म्म् डरे ॥ आये  
= २ ० ३

### अंतरा, कोयल की कूक सुनत

म्प नीसां रेम् रेसां । नीनी म्प नीध पम् ॥ धप मुरे पम् रेसा । रेरे म्प नीनी धप ।  
० ३ = २

म्प सां, म्प सां । कोयल...सुनत । पनी सां, प नीसां, पनी । सारें नीसां, नीनी धप ॥

, नीसां रे, नी । सांरे, नीसां रेम् रेसां । नीनी धप म् रेसा, । सांरे मुंसां रेम् सांरे ॥  
 सांरे नीसां । नीनी धप म् रेसा, । रेम् पनी म्प सां । कोयल... सुनत  
 म्मं, रेसां, । नीसां सां, नी सांसां, नीप, ॥ रेम् मु, रे म्, रेसा, । रेम् रेप म्नी पसां ।  
 [ परे म्सा । नीसा रेम्, रेम् पनी, ॥ म्प नीसां, पनी सांरे, । नीसां रेम् रेसां नीसां ।  
 म्प म् रेसा । कोयल....सुनत । नीनी प, नी नीप, नीनी । प्प म् रे रे सासा, ॥  
 रे रेसां, रेरे । सांसां नीनी प्प म् म् । रेरे सासा, म्मं रे, म् । म्रे, म्मं रेरे सांसां ॥  
 । नीनी धप, । धप म् रे, प्प रेसा, । नीसा रेम् पनी सां । कोयलाकी कूक, इ० इ०

**बोलतानें.** बादरवा बरसन आये

म्प पनी नीसां सांरे रेम् म्रे ॥ रेसां सांनी नीध धप प्प म् रे रेसा नीसा  
 : रऽ वाऽ बऽ रऽ सऽ नऽ आऽ ऽ ऽ ऽ येऽ ऽ ऽ ऽ वादरवा...आये  
 : प्प नीप सांनी रेसां म्रे प्मं रेसां नीप म्प नीसां नीध प्प रेसा नीसा  
 : रऽ वाऽ बऽ रऽ सऽ नऽ आऽ ऽ ऽ ऽ येऽ ऽ ऽ ऽ वादरवा...आये  
 ।, प्प म् रे, नीनी प्प, सांसां नीप, रेरे सांनी, म्मं रेसां, नीध प्प रेसा नीसा  
 दऽ ऽ रऽ ऽ वाऽ ऽ बऽ ऽ रऽ ऽ सऽ नऽ आऽ येऽ वाद...आये  
 रे प्मं रेसां नीप म्प सां ऽ नीनी म्प नीध प्प ऽ ऽ रेरे रेम्  
 ऽ रऽ वाऽ बऽ रऽ सन आ ऽ ऽ ऽ ये ऽ ऽ न्हानी न्हानी  
 ।, नीसा रेम् पनी सांरे म्रे ऽसां रेनी म्प नीध प्प म्प म् रेसा नीसा  
 न गर जग रज चहूँ औऽ र ॥ बिज लीऽ चम के बाद वीव रस ऽन  
 म् रेसा नीसा म्प म् रेसा नीसा  
 ब रस ऽन बाद बीव रस ऽन आये

## सूर मल्लार - तिलवाडा (विलंबित)

गरजत आये बादरवा अतही डर पाये.

रुम झूम चहूं आवुके धीकै, सदरौंग सुख पाये.

रे  
रे रे नी सा ॥ सां S S S | S S नीध म्पम्प | नीध पम्प S S | प S S म्नी ॥  
गर ज त ॥ आ S S S | S S S S | S ये S S S S | बा S S S ॥  
३ = (सम) २ ० ३

सा म् प  
प मुरे S S | सानी S सा S | नीसा रे म् S | पनी पनी सां S | सां सां रे S |  
द रु S S S | वा S S S S | अत ही S S | S S S S ॥ ड र पा S |  
= २ ० ३ =

रे  
सां S नीध म्पम्प | नीध प S S | S S मुरे नीसा | सां S S S | S S नीध म्पम्प |  
S S S S | S ये S S | S S गर जत | आ S S S S | S S S S |  
२ ० ३ = २  
नीध पम्प S, म् |  
S ये S S S, रु |  
०

अंतरा.

नीप S S नी ॥ सां S S S | S S सां S | S S सां S | सां S सां S | नीसांनीरे S S सां  
म S S S झू ॥ S S S S | S S म S | S S च S | हूं S आ S | S S S वृ  
३ = २ ० ३ =

रे S सां S | S नी सां S | नीध पम्प S S ॥ म् प रे S | सा नी सा S |  
के S S S | S धि कै S | S S S S ॥ स दा रौ S | ग S S S |  
२ ० ३ = २

सा म् प  
नीसा रे म् S | पनी पनी सां S ॥ सां सां रे S | सां S नीध म्पम्प | नीध प S S |  
अद त ही S | S S S S ॥ सु ख पा S | S S S S | S ये S S |  
० ३ = २ ०

म्पनीसां रेंमुरेंसां नीधपम् रेसांनीसा ॥ सां S S S | S S नीध म्पम्प | नीध पम्प S S |  
S S S गरजत ॥ आ S S S S | S S S S | S ये S S S S |  
३ = २ ०

नीसारेम् रेसा, नीसा रेम्पम् रेसा, नीसा ॥ रेम्पनी नीधपम् रेसा, नीसा रेम्पनी ।  
३ =

सारेंसां नीधपम् रेसा, नीसा रेम्पनी । सारेंमूं रेंसांनीसां रेन्नीम्प नीनीधप ।  
२

धधपम् पपमुरे मुरेसा सारेनीसा ॥ सां S S S ॥ सांनीधप मुरेसा नीसारेम् पनीसांS ॥  
३ गरजत ॥ आ S S S ॥ गरजत आऽयेऽ बाऽदर वाऽSS ॥  
= २

पनीसां म्पनीसां रेंमुरेंसां रेंनीम्प ॥ नीधपऽ रेरेमूं रेरेसासा सारेनीसा ॥  
अतहीऽ डरपाऽ S S ॥ Sऽयेऽ बाऽदर वाऽSS गरजत ॥ आये...गरजत  
० ३

सांनीधप नीधपम् धपमुरे पमुरेसा ॥ नीसारेम् पनीसां रेंऽमूं रेरेसांS ॥  
गऽSS रऽSS जऽSS तऽSS ॥ बाऽSS दरवाऽ अतऽSऽहीऽ ॥  
= २

रेन्नीम्प नीधपऽ म्परेम् सारेनीसा ॥ सां, सारेनीसा सां, सारेनीसा ॥  
डरपाऽ Sऽयेऽ बाऽदर गरजत ॥ आ, गरजत आ, गरजत ॥ आये...गरजत  
० ३

साम्परे रेपऽम् पनीऽप नीसांसां ॥ रेंसांS मूंमुरेंसां नीसांरें धनीपप ॥  
गऽSS रऽSS जऽSS तऽSS ॥ आऽयेऽ बाऽदर वाऽअत हीऽडर ॥  
= २

म्पनीसां रें नीध म्प ॥ म् रे नी सा ॥ रेमुरे, रे मुरे, रेम् रेपम्प पप ॥  
पाऽSS S येऽ S ॥ ग र ज त ॥ गऽSS रऽSS जऽSS तऽSS आये ॥  
० ३ =

मूनीप, मू नीप, मूनी पसांनीसां सांसां ॥ नीसारें, नी सांरें, नीसां नीध म्प ॥ रे रे नी सा ॥  
बाऽSSदऽ Sऽरुऽ बाऽSS अत ॥ हीऽSडऽ Sऽरुऽ पाऽ Sये ॥ ग र ज त ॥  
२ ३

रेम् रे, रे पप, पनी ॥ प, नी सांसां, रें रें नी, सां ॥ नीध, म्प प, नी सांसां ॥ मुरे नीसा, मुरे नीसा ॥  
गऽ रजऽत आऽ Sये S बाऽ दरु ॥ वाऽ अत हीऽ डर ॥ पाऽ Sये गर जत ॥  
= २ ३ आये...गरजत

रेरेसासा, म्पुरेरे सासा, पप म्पुरेरे । सासा, नीनी पपम्प रेरेसासा, रेंसांसां ।  
= २

नीनीपप म्पुरेरे सासा, मूंमूं रेंसांसां । नीनीम्प नीनीधप म्पुरेसा, सारेनीसा ॥  
० ३ गरजत ॥ आ

रेंमुरें,सां रेंसां,नीसां नी,पनीप, म्पमुरे | मुरे,सारे सा,नीसाऽ, रेमुरे,प ऽप,म्प |  
 गऽऽर ऽऽजऽ ऽतऽऽ आऽऽथे | ऽऽबाऽ ऽदरुऽ व ऽऽअ ऽतहीऽ |  
 २

मु,नीऽनी पनीप,सां ऽसां,नीध प,मुरेसा || | रेमुरे,प पपऽऽ म्पम,नी नीनीऽऽ |  
 ऽडऽर पाऽऽऽ ऽथेगऽ रजऽत || आ | गऽऽर जतऽऽ आऽऽथे ऽबाऽऽ |  
 ३ २

पनीप,नी सांसांऽऽ नीसांनिरें रेंसांऽऽ | नीधम्प मुरेनीसा मुरेनीसा मुरेनीसा ||  
 दऽऽरु वाअऽऽ तऽऽही डरऽऽ | पाऽऽथे गरजत गरजत गरजत || आ  
 ३

सारेपप ऽप,म्प नीनीऽनी, पनीसांसां | ऽसां,रेंसां नीसां,नीध नीधम्प मुरेनीसा |  
 गरऽज ऽतआथे ऽबाऽद रुवाऽअ | ऽतहीड ऽरपाऽ ऽऽऽथे गरजत |  
 २

सां, मुरेनीसा सां, मुरेनीसा || | रेंसांसांनी नीधप म्पमुरे सा, |  
 आ गरजत आ गरजत || आ | गऽरऽ जऽतऽ आऽऽऽ थे |  
 ३ २

सारेसा,मु ऽमु,रेम् रे,पऽप, म्पम,नी | ऽनी,पनी प,सांसां नीनीधप मुरेनीसा || सां ऽ ऽ ऽ |  
 बाऽऽद ऽरवाऽ ऽअऽत हीऽऽड | ऽरपाऽ ऽऽऽथे ऽ गरजत || आ ऽ ऽ ऽ |  
 ३ =

ऽ ऽ ऽ ऽ | सांनीधप मुरेनीसा नीधपम् पनीसारे | म्पनीसां रेंनीम्प नीधपम् रेसांनीसा ||  
 ऽ ऽ ऽ ऽ | गरजत आऽथेऽ बाऽऽऽ दरुवाऽ | अतहीऽ डरपाऽ ऽऽथेऽ गरजत || आ  
 २ ३

नीसांनिरेंसांनी पनीपसांनीध म्पमन्नीधप रेमुरेपमुरे | सारेसामुरेनी सा, नीसारे,सारेम्, रेम्प,म्पनी, |  
 गऽरजत आऽथेबाऽऽ दऽरुवाऽऽ अतहीऽऽ | डऽरपाऽऽ थे गऽऽरऽऽ जऽऽतऽऽ |  
 २

सां, रेम्प,म्पनी सां, रेम्प,म्पनी ||  
 आ जऽऽतऽऽ आ जऽऽतऽऽ || आथे  
 ३

अंतरा. रुम झू

सां ऽ ऽ ऽ | ऽ ऽ सां, सांनीधप | मुरेनीसा, रेम्पनी म्पसांऽ, मु |  
 ऽ ऽ ऽ ऽ | ऽ ऽ म आऽऽऽ | ऽ ऽ ऽ रु | म झू  
 = २

सां S S S । S S रेंमुरेंसां नीनीधप । म्मुरेसा, रेम्पनी म्पसां, रु । म झूम  
 = २ ०  
 नीनीप, नी नीप, नी नी धपमुरे सारेनीसा, । रेंरेंसां, रें रेंसां, रेंरें सांनीधप मुरेनीसा, ॥  
 ० ३  
 मंमुरें, मं मुरे, मंमं रेंसांनीध पमुरेसा, । सारेम्प नीनीधप म्पसां, नीनीधप ।  
 = २  
 म्पसां, नीनीधप म्पसां, रु । म झूम । सांनीधप म्मुरेसा, सारेम्प नीधप, ।  
 ०  
 म्पसां नीधप, नीसारेंसां रेंमुरेंसां ॥ रेंनीम्प नीधप, धपमुरे, रेंसांनीध ।  
 ३ =  
 न्नीन्मम् नीधप, मुरेपप मुरेसासा, । सारेम्प नीधप, म्पसां, रु । म झूम  
 २ ०  
 सारेनीसा, म्मुरेरे सारेनीसा, नीनीपप । म्मुरेरे सारेनीसा, रेंरेंसांसां नीनीपप ॥  
 ० ३  
 म्मुरेरे सारेनीसा, मंमुरेंरें सांरेंनीसां । नीनीम्प नीनीधप धपमुरे पमुरेसा, ।  
 = २  
 सामुरेप म्नीपसां रेंमुरेंसां, रु । म झूम, ई०ई०  
 ०

### सारंग - एकताल (मध्य लय)

मैं न जाऊं हरि पासे री सजनी.

शाम रच्यो अब औरन, तिथन संग हों भोंसो भये उदार.

सां S सां नी प म् रे सा रे S सा S म् S म् रे प म् नी प सां नी सां S  
 मैं S न जा S ऊं ह रि पा S से S री S स ज नी S S S S S S मैं ..  
 =(संम) ० २ ० ३ ४ = ० २ ० ३ ४

अंतरा.

म् S म् म् प S नी नी सां S सां सां म् म् रें सां S सां नी S म् प S S  
 शा S म र च्यो S अब औ S र न ति थ न सं S ग हों S भों सो S S  
 = ० २ ० ३ ४ = ० २ ० ३ ४

म् पनी सांरें सां रेंरें सांनी पनी सांरें सांनी पम् रेसा नीसा ॥  
 भ ये S S उ दा S S S S S S S S मैं... पासे  
 = ० २ ० ३ ४

## आलाप.

सा ऽ, नी सा। रे ऽ। ऽ। ऽ। मू रे। ऽ। ऽ, ॥ मू प। नी प। मू रे। ऽ। ऽ, । प रे। ऽ सा ॥ मैं...पासे  
= ० २ ० ३ ४ = ० २ ० ३ ४

सा ऽ, नी सा। ऽ। ऽ, । प नी। सा ऽ। ऽ। ऽ, ॥ मू प। नी सा। ऽ। ऽ, । रे मू। रे सा। ऽ। ऽ,  
= ० २ ० ३ ४ = ० २ ० ३ ४

रे मू। प मू। रे सा। ऽ। ऽ, । नी नी। प ऽ, ॥ मू प। नी प। मू रे। ऽ। ऽ, । प मू। रे सा ॥ मैं...पासे  
= ० २ ० ३ ४ = ० २ ० ३ ४

सा रे। मू रे। ऽ। ऽ, । प मू। रे ऽ। ऽ। ऽ, ॥ नी नी। प मू। रे ऽ। ऽ। ऽ, । सां ऽ। नी नी  
= ० २ ० ३ ४ = ० २ ० ३ ४

प मू। रे ऽ। ऽ। ऽ, । रें रें। सां ऽ। नी नी ॥ प मू। रे ऽ। ऽ। ऽ, । मूं मूं। रें सां। नी नी  
= ० २ ० ३ ४ = ० २ ० ३ ४

प मू। रे ऽ। ऽ। ऽ, । मू रे। ऽ। ऽ, । नीसा ऽ ॥ मैं...पासे  
= ० २ ० ३ ४

नी सा। रे मू। प ऽ। रे मू। प ऽ। ऽ। ऽ, ॥ नी नी। प ऽ। ऽ। ऽ, । सां ऽ। नी नी। प ऽ  
= ० २ ० ३ ४ = ० २ ० ३ ४

ऽ। ऽ, । रें सां। नी नी। प ऽ। ऽ। ऽ, । मूं मूं ॥ रें सां। नी नी। प ऽ। ऽ। ऽ, । मू प। नी नी  
= ० २ ० ३ ४ = ० २ ० ३ ४

प मू। रे ऽ। ऽ। ऽ, । प ऽ। रे ऽ। नीसा ऽ ॥ मैं...पासे  
= ० २ ० ३ ४

नीसा रे मू। प नी मू प। नी ऽ। ऽ। ऽ, । सां ऽ। ऽ। ऽ, ॥ सां ऽ। सां रें। ऽ। ऽ। ऽ। मूं रें।  
= ० २ ० ३ ४ = ० २ ०

नीसां ऽ। ऽ। ऽ, ॥ रें नीसां। ऽ। ऽ, । मू प नीसां। रें नी सां रें। नीसां ऽ। ऽ। ऽ ॥ नी प। ऽ। ऽ, ।  
३ ४ = ० २ ० ३ ४ = ०

सां प। नी मू। प ऽ, । रे मू प नी ॥ मू प मू। रे ऽ। ऽ। ऽ, । प रे। ऽ, मू। नी सा ॥ मैं...पासे  
२ ० ३ ४ = ० २ ० ३ ४

## तानें

रे मू रेसा, । रे मू प मू। रेसा, रे मू। प नी प मू। रेसा, रे मू। प नी सां रें ॥ सां नी प मू। रेसा, रे मू।  
= ० २ ० ३ ४ = ०

प नी सां रें। मूं रें सां। रें रें सां नी। प मू रेसा ॥ मैं...पासे  
२ ० ३ ४

.मृ.मृ पप । नीनी सा, । पप नीनी । सा, पनी । सा, रेरे । सा, मृमृ ॥ रेरे सा, । पप मृमृ । रेरे सा, ।  
 =            ०            २            ०            ३            ४            =            ०            २  
 नीनी पमृ । रेमृ पमृ । रेरे सा, ॥ सारें, सांनी । पमृ रेमृ । पमृ रेरे । सा, मृमृ । रेसां नीनी । पमृ रेसा ॥ मैं .पासे  
 ०            ३            ४            =            ०            २            ०            ३            ४  
 सारे मृ,रे । मृप, मृप । नी,प नीसां, । नीसां रें,सां । रेंमृ, रेंमृ । पं,मृ रेमृ, ॥ रेसां रें,सां । नीसां, नीप ।  
 =            ०            २            ०            ३            ४            =            ०  
 नी,प मृप, । मृरे मृ,रे । सारे, सानी । सा ऽ ॥ मैं....पासे ॥ रेरे सा,मृ । मृरे, पप । मृ,नी नीप, ।  
 २            ०            ३            ४            =            ०            २  
 सांसां नी,रें । रेसां, सारें । नीसां पनी ॥ मृप रेमृ । सारे नीसा, । रेमृ प, । रेमृ पनी, । रेमृ पनी ।  
 ०            ३            ४            =            ०            २            ०            ३  
 सां, मृप ॥ नीसां रें । ऽ ऽ । मृमृ ऽरें । सां, नीनी । ऽप मृ, । मृमृ ऽरे ॥ मैं .... पासे  
 ४            =            ०            २            ०            ३            ४  
 नीसा रेमृ । ऽमृ प, । पनी ऽनी । सां, सारें । ऽरें मृं, । मृपं ऽमृं ॥ रें, नीसां । ऽनी प, । मृप ऽमृ ।  
 =            ०            २            ०            ३            ४            =            ०            २  
 रे, नीसा । रेमृ पनी । पनी सारें ॥ मृमृ रेसां । रेंरें सांनी । सांसां नीप । नीनी पमृ । पप मृरे ।  
 ०            ३            ४            =            ०            २            ०            ३  
 मृमृ रेसा ॥ मैं .... पासे ॥ रेरे सासा, । मृमृ रेरे । सासा, पप । मृमृ रेरे । सासा, नीनी ।  
 ४            =            ०            २            ०            ३  
 पप मृमृ ॥ रेरे सासा, । रेरे सांसां । नीनी पप । मृमृ रेरे । सासा, मृमृ । रेरे सांसां ॥  
 ४            =            ०            २            ०            ३            ४  
 नीनी पप । मृमृ रेरे । सासा, नीनी । सासा रेरे । मृमृ पप । नीनी सां ॥ मैं....पासे  
 =            ०            २            ०            ३            ४

अंतरा. शाम रच्यो अब औरन

सां ऽ । ऽ, नी । ऽ ऽ, । मृ प । नी ऽ । सां ऽ ॥ शाम....औरन ॥ मृप नीसां । रें ऽ । ऽ, सारें ।  
 =            ०            २            ०            ३            ४            =            ०            २  
 सांनी प । ऽ, मृप । सां ऽ ॥ शाम....औरन ॥ मृप नीसां । रें ऽ । ऽ ऽ, । रें ऽसां । मृं ऽरें ।  
 ०            ३            ४            =            ०            २            ०            ३



पं Sम् ॥ रें सां । S S, । रें मूं । रें नीसां । रें S । नीसां S ॥ S S, । नी S । S, मूप । सां S ।  
 ४ = ० २ ० ३ ४ = ० २ ०  
 S, नीसां । S S ॥ शाम....औरन ॥ पनी सां,प । नीसां, पनी । सारें नीसां । पनी मूप ।  
 ३ ४ = ० २ ०  
 रेम् सारे । नीसा, नीसां ॥ रें,नी सारें, । नीसां रेंमूं । सारें नीसां । पनी मूप । रेम् सारे ।  
 ३ ४ = ० २ ० ३  
 नीसा, सारें ॥ मूं,सां रेंमूं, । सारें मूंपं । रेंमूं सारें । नीसां पनी । मूप रेम् । सारे नीसा, ॥  
 ४ = ० २ ० ३ ४  
 नीसा रेम् । पनी मूप । सां, पनी । मूप सां, । पनी मूप । सां S ॥ शाम .... औरन  
 = ० २ ० ३ ४  
 नीनी प,नी । नीप, नीनी । पप मूम । रेरे सासा, । रेंरें सां,रें । रेंसां, रेंरें ॥ सांसां नीनी ।  
 = ० २ ० ३ ४ =  
 पप मूम । रेरे सासा, । मूंमूं रें,मूं । मूंरें, मूंमूं । रेंरें सांसां ॥ नीनी पप । मूम रेरे ।  
 ० २ ० ३ ४ = ०  
 सासा, नीसा । रेम् पनी । मूप सां, । मूप सां ॥ शाम....औरन ॥ सारें सांनी । पनी सारें ।  
 २ ० ३ ४ = ०  
 सां S, । नीनी पम् । रेम् पनी । प S, ॥ नीनी प, । रेंरें सां, । मूंमूं रें, । पंपं मूंमूं । रेंरें सांसां ।  
 २ ० ३ ४ = ० २ ० ३  
 नीनी पप ॥ मूम रेरे । सा S, । रेम् पनी । सां, रेम् । पनी सां । रेम् पनी ॥ शाम....औरन  
 ४ = ० २ ० ३ ४  
 पनी सारें । सां, मूप । नीसां नी, । रेम् पनी । प, मुरे । पम् नीप ॥ सांनी रेंसां । मूंमूं रेंसां, ।  
 = ० २ ० ३ ४ = ०  
 नीरें सारें । नीसां पनी । मूप रेम् । सारे नीसा ॥ शाम....औरन ॥ सांनिसां रेंसारें । सांनिसां मुरेंमूं ।  
 २ ० ३ ४ = ०  
 सांनिसां पंमूंपं । मुरेंमूं रेंसारें । सांनिसां नीपनी । पम्प मुरेम् ॥ रेसारे सांनिसा, । नीसारे मूपनी ।  
 २ ० ३ ४ = ०  
 सारेंमूं मुरेंसां । नीनीप मुरेसा । नीसाS, रेम्प । नीमूप सां ॥ शाम रच्यो, इ० इ०  
 २ ० ३ ४

धौलतानें. मैं न जाऊं हरि पासे

सां ऽ | सां प | सां सां | पनी सारें | सां नी पनी | सारें सां | सां ऽ | ऽ ऽ | नी ऽ | म् प | सां ऽ |  
 मैं ऽ | न जा | ऽ वुं | ह ऽ ऽ | रि ऽ पा ऽ | ऽ से || आ ऽ | ऽ ऽ | ऽ ऽ | ऽ ऽ | ऽ ऽ |  
 = ० २ ० ३ ४ = ० २ ० ३

ऽ ऽ || सां ऽ | सां प | सां सां | पनी सारें | सां नी पनी | सारें सां || पनी सां | रें ऽ | सां ऽ,  
 ऽ ऽ || मैं ऽ | न जा | ऽ वुं | ह ऽ ऽ | रि ऽ पा ऽ | ऽ से || आ ऽ | ऽ ऽ | ऽ ऽ | ऽ ऽ |  
 ४ = ० २ ० ३ ४ = ० २

म् प | सां ऽ | ऽ ऽ || मैं... पासे | सा म् | रे प | म् नी | प सां | नी रें | सां ऽ | पनी सारें |  
 ऽ ऽ | ऽ ऽ | ऽ ऽ || मैं ऽ | न जा | ऽ वुं | ह रि | पा ऽ | से ऽ || आ ऽ | ऽ |  
 ० ३ ४ = ० २ ० ३ ४ =

सां ऽ, | पनी सारें | सां ऽ, | पनी सारें | सां ऽ || मैं... पासे | म् ऽ | रे प | ऽ म् | नी ऽ | प सां  
 ऽ ऽ, | ऽ ऽ | ऽ ऽ, | ऽ ऽ | ऽ ऽ || मैं ऽ | न जा | ऽ वुं | ह ऽ रि पा  
 ० २ ० ३ ४ = ० २ ० ३

ऽ सां || म् रे | प म् | नी प | सां नी | सां ऽ | ऽ ऽ || मैं... पासे | सा रे | रे म् | म् प | पनी | नी सां |  
 ऽ से || आ ऽ | ऽ ऽ | ऽ ऽ | ऽ ऽ | ऽ ऽ | ऽ ऽ || मैं ऽ | न जा | ऽ वुं | ह ऽ  
 ४ = ० २ ० ३ ४ = ० २ ० ३

सां रें | रें सां | सां नी | नी प | प म् | म् रे | रे सा || मैं... पासे | रे सा | म् रे | प म् | नी प |  
 रि ऽ | पा ऽ | से ऽ | रि ऽ | स ऽ ज ऽ नी ऽ || मैं ऽ | न जा | ऽ वुं | ऽ  
 ४ = ० २ ० ३ ४ = ० २ ०

सां नी | रें नी || सां प | नी म् | प रे | म् सा | रें नी | सा ऽ || मैं... पासे | नी सा | रे म् |  
 ह ऽ रि ऽ || पा ऽ | से ऽ रि ऽ स ऽ ज ऽ नी ऽ || मैं ऽ | न जा |  
 ३ ४ = ० २ ० ३ ४ =

ऽ म् | प ऽ, | प नी | ऽ नी | सां ऽ, | सां रें | ऽ रें | म् रें सां | नी नी प म् | रे सा नी सा || मैं... पासे  
 ऽ वुं | ह ऽ रि पा | ऽ से || रि ऽ स ज | ऽ नी | ऽ ऽ | ऽ ऽ | ऽ ऽ || मैं... पासे  
 २ ० ३ ४ = ० २ ० ३ ४

म् ऽ | म् म् | ऽ म् | रे म् | प म् | प ऽ || प ऽ | म् प | नी ऽ | नी ऽ | प नी |  
 मैं ऽ | न जा | ऽ वुं | ह रि | पा ऽ से ऽ रि ऽ स ज | नी ऽ रि ऽ स ज |  
 = ० २ ० ३ ४ = ० २ ० ३

सां ऽ || मैं... पासे | नी ऽ | नी नी | ऽ नी | प नी | सां रें | रें ऽ || सां नी | म् प | सां ऽ |  
 नी ऽ || मैं ऽ | न जा | ऽ वुं | ह रि | पा ऽ से ऽ रि ऽ स ज | नी ऽ |  
 ४ = ० २ ० ३ ४ = ० २

सां नी | म् प | सां ऽ || रें सां नी | सां नी प | नी प म् | प म् रे | म् रे सा | रे सा ||  
 रि ऽ | स ज | नी ऽ || मैं...पासे | मैं ऽ | न ऽ | जा ऽ | वुं ऽ | ह रि ऽ | पा से ||  
 ० ३ ४ = ० २ ० ३ ४

नीसा रेम् | पनी म् प | सां ऽ, नीसा रेम् | पनी म् प | सां ऽ || म् रे सा | प म् रे | नी प म् |  
 रि ऽ ऽ | ऽ स ज | नी ऽ | रि ऽ ऽ | ऽ स ज | नी ऽ || मैं...पासे | मैं ऽ | न ऽ | जा ऽ ||  
 = ० २ ३ ४ = ० २

सां नी प | रें नी सां | मूं ऽ | रें सां | ऽ ऽ | सां नी | प म् | रे सा | रें सा || मैं...पासे | सा रे |  
 वुं ऽ | ह रि ऽ | पा ऽ || से ऽ | ऽ ऽ | मैं न | जा वुं | ह रि | पा से || मैं...पासे | मैं न ||  
 ० ३ ४ = ० २ ० ३ ४ =

म् प | नी सां | रें ऽ | रें ऽ | ऽ ऽ || रें ऽ | रें रे | म् रे | प म् | नी प | सां नी || मैं...पासे  
 जा वुं | ह रि | पा ऽ | से ऽ | ऽ ऽ | रि ऽ | स ज | नी ऽ | ऽ ऽ | ऽ ऽ | ऽ ऽ || मैं...पासे  
 ० २ ० ३ ४ = ० २ ० ३ ४

म् प नीसां | रें रें | नी ऽ | सां ऽ | रें सां | मूं रें | नी सां | पनी सां रें | सां नी | प ऽ | म् प सां |  
 मैं ऽ ऽ | ऽ न | जा ऽ | वुं ऽ | ह रि | पा ऽ || से ऽ | रि ऽ ऽ | स ज | नी ऽ | ऽ ऽ ||  
 = ० २ ० ३ ४ = ० २ ० ३

ऽ ऽ || मैं...पासे | सां ऽ | सां नी | म् प | पनी सां रें | सां नी पनी | सां रें सां || रें सां | ऽ नी | म् प |  
 ऽ ऽ || मैं...पासे | मैं ऽ | न जा | ऽ वुं | मैं ऽ ऽ | न ऽ जा ऽ | ऽ वुं || ह रि | ऽ पा | ऽ से ||  
 ४ = ० २ ० ३ ४ = ० २

रें सां | ऽ नी | म् प || मैं...पासे | रें सां | मं रें | पं मूं | रें सां | नी प | म् प | सां ऽ | ऽ ऽ  
 ह रि | ऽ पा | ऽ से || मैं...पासे | मैं ऽ | न ऽ | जा ऽ | वुं ऽ | ह रि | पा ऽ || से ऽ | ऽ ऽ  
 ० ३ ४ = ० २ ० ३ ४ = ०

नी ऽ | म् प | सां ऽ | ऽ ऽ || मैं...पासे | मैं न | जा वुं | ह रि | पा ऽ | से ऽ | ऽ ऽ ||  
 रि ऽ | स ज | नी ऽ | ऽ ऽ || मैं...पासे | मैं न | जा वुं | ह रि | पा ऽ | से ऽ | ऽ ऽ ||  
 २ ० ३ ४ = ० २ ० ३ ४

मूं ऽ | सां ऽ | ऽ ऽ | रें ऽ | नी ऽ | ऽ ऽ || सां ऽ | प ऽ | ऽ ऽ | म् प नीसां | रें रें |  
 रि ऽ | ऽ ऽ | ऽ ऽ | स ऽ | ज ऽ | ऽ ऽ || नी ऽ | ऽ ऽ | ऽ ऽ | मैं ऽ ऽ | न जा |  
 = ० २ ० ३ ४ = ० २ ० ३

नी सां || मैं...पासे || मैं ऽ | ऽ न | जा ऽ | वुं ऽ | ह रि | ऽ ऽ || सां नी | प ऽ | नी सां |  
 ऽ वुं || मैं...पासे || मैं ऽ | ऽ न | जा ऽ | वुं ऽ | ह रि | ऽ ऽ || पा ऽ | से ऽ | ह रि ||  
 ४ = ० २ ० ३ ४ = ० २

नी रें | सां नी | प ऽ || नी म् प | सां ऽ, नी म् प | सां ऽ, नी म् प | सां ऽ || मैं...पासे  
 ऽ ऽ | पा ऽ | से ऽ | रि स ज | नी ऽ | रि स ज | नी ऽ | रि स ज | नी ऽ || मैं...पासे  
 ० ३ ४ = ० २ ० ३ ४

## मुलतानी—एकताल (मध्य लय)

नैनन में आन बान कौनसी परी.

निसादिन सोवत, पलक न खेलत, जव देखो भूख श्याम की खरी.

प	म	म	सा	सा	नी	सा	ग	ग	पनी	सां	ध	प				
प	ग	म	प	ग	रे	सा	सा	नी	सा	म	ग	म	पनी	सां	ध	प
नै	न	में	आ	न	वा	न	कौ	न	सी	प	री	सा	सा	सा	सा	सा
=	(सम)	०	२	०	३	४	=	०	२	०	३					

म	सा	सा	नी	सा	ग	ग	पनी	सां	ध	प						
म	ग	रे	सा	प	प	ग	म	प	नी	सां	सां	नी	सां	ग	रे	सां
सा	नी	सा	ग	ग	पनी	सां	ध	प	नी	सां	ग	रे	सां	म	प	की
४	=	०	२	०	३	४	=	०	२	०	३					

पनी	सां	ध	प	ग	म	पनी	नी	पनी	सां	ग	रे	सां	म	प
खो	सा	ल	सा	त	ज	ब	दे	खो	मू	ख	श्या	म	की	सा
०	३	४	=	०	२	०	३	४	=	०	२	०	३	

सां	नी	पनी	सां	ध	प	म	ग	रे	सा	नी	सा	ग	म
सा	ख	री	सा	सा	सा	सा	सा	सा	सा	सा	सा	सा	सा
०	३	०	३	४									

### आलाप, नैनन में आन बान

प	ग	रे	सा	सा	नी	सा	म	ग	प	सा	सा	म	प	ध	प	म	ग	सा
=	म																	

गम प। ग। रे। सा। सा। नी। सा। म ग ॥ नैनन में आन बान

नी	सा	म	ग	सा	प	म	ध	प	म	ग	सा	ग	म	पनी	ध	प	म	ग	सा
म																			

ग	म	पनी	सां	नी	ध	प	म	ग	सा	प	म	ग	म	ग	रे	सा	नी	सा	म	ग

नैनन में आन बान

नीसा गम। प, गम। प। सा। सा। म प। ध प ॥ सा। नी ध। प। सा। सा। सां। नी ध

प	सा	सा	रे	सां	नी	ध	प	म	ग	म	प	ग	ग	म	पनी	ध	प	म	प	ग
ध																				

प ग। प। ग। रे। सा। नी। सा। म ग ॥ नैनन में आन बान

सा  
नी सा । म ग् । प ऽ । ऽ ऽ । ऽ ऽ । ऽ ऽ, । प म ॥ प ऽ । म ग् । म ऽ । ग् ऽ । ऽ ऽ । ऽ ऽ । ऽ ऽ,  
म  
ग्प पनी । ऽ ऽ । ऽ ऽ । ऽ ऽ । ऽ ऽ, । ध् ऽ । प ऽ ॥ ऽ ऽ । ऽ ऽ । ऽ ऽ । ऽ ऽ, । ग्म पसां । ऽ ऽ । ऽ ऽ  
नीसां । ऽ । ऽ ऽ, । रें । ऽ । ऽ ऽ, । नीसां । ऽ । ऽ ऽ, ॥ नी सां । ग्ं । ऽ । ऽ ऽ, । रें नी । सां । ऽ । ऽ ऽ,  
म  
रें नी । सां ऽ नी । ध् प । ऽ म ग् । ऽ ऽ । ऽ ऽ, ॥ ग्म पसां । ऽ ऽ । ऽ ऽ । ऽ ऽ, नी । ध् प । ऽ ऽ,  
म  
म ग् । म ऽ । ग् ऽ । ऽ ऽ । ऽ ऽ । ऽ ऽ, । ग् म ॥ ध् ग् । म ग् । रे सा । ऽ ऽ, । नी सा । म ग्  
सा  
नैनन... परी

सा रे म प ध् सां रें मं ग्ं रें सां नी ध् प म ग् रे सा  
नी सा । ग् म । प नी । सां ग्ं । रें सां । नी ध् ॥ प म । ग् रे । सा ऽ । ऽ ऽ, । नी सा । म ग्

### तानें, नैनन में आन बान

नीसा म्ग । रेसा, नीसा । म्ग पम । गुरे सा, नीसा म्ग । पम ध्प ॥ म्ग रेसा, नीसा म्ग ।  
= ० २ ३ ४ = ०  
पम ध्प । सांनी ध्प । म्ग रेसा, नीसा म्ग ॥ पम ध्प । सांनी रेंसां । ग्ं रें सांनी । ध्प म्ग ।  
६ ० ३ ४ = ० २ ०  
रेसा, नीसा । म्ग पम ॥ ध्प सां । ऽ, मंमं । ग्ं रें सांनी । ध्प म्ग । म्ग रेसा, नीसा म्ग ॥  
३ ४ = ० २ ० ३ ४

नैनन में

पम गुरे । सा, नीनी । ध्प म्ग ॥ रेसा, रें रें । सांनी ध्प । म्ग रेसा, ग्ं रें सां । नीनी ध्प ।  
० ३ ४ = ० २ ३  
म्ग रेसा, ॥ नीसा ग्म । पनी सारें । सांनी ध्प । म्ग पम । गुरे सा, नीसा म्ग ॥ नैनन.... परी  
४ = ० २ ३ ४  
पप मप । ध्प मप, । ग्म ग्म । पनी ध्प, । नीनी ध्प । मप ध्प ॥ ग्म पनी । सां ग्ं रेंसां, ।  
= ० ३ ४ = ०  
नीनी ध्प । मप ध्प । मग मप । म्ग रेसा ॥ नैनन.... परी

नीनी धूप । नीनी धूप, । मप मप । ग्म ग्म, । ग्म पनी । सारें सांनी ॥ धूप मप । मग् र्सा ।  
 = ० २ ० ३ ४ = ०  
 नीसा ग्म । प, नीसा । ग्म प, । नीसा ग्म ॥ नैनन....परी ॥ मम ग्म, म । मग्, मम । ग्मे सा ; ।  
 २ ० ३ ४ = ० २  
 नीनी प,नी । नीप, नीनी । धूप मग् ॥ र्सा; रें । सां, रें रेंसां, । रें, सांनी । धूप मग् । र्सा; नीसा ।  
 ० ३ ४ = ० २ ३  
 ग्म पनी ॥ सांग्ं ग्ं रें । सांनी धूप, । मप सांनी । धूप, मप । नीनी धूप । मग् र्सा ॥ नैनन .... परी  
 ४ = ० २ ३ ४  
 ग्म ग्मे । सानी साग् । मप धूम । पग् मप । नीसां नीध् । पम ग्म ॥ पनी सारें । नीसां नीसां ।  
 = ० २ ३ ४ = ०  
 ग्ं रेंसां । नीसां नीरें । सांनी धूप । मग् र्सा ॥ नैननमें आन बान ॥ नीसा ग्,सा । ग्म, ग्म ।  
 २ ० ३ ४ = ०  
 प,म पनी, । पनी सां,ग्ं । रेंसां रेंसां । नी,सां नीध्, ॥ नीध् प,ध् । पम, पम । ग्,म ग्मे, । ग्मे सा, ।  
 २ ० ३ ४ = ० २ ३  
 ग्मप नीसां ग्ं । रेंसांनी धूपम ॥ ग्मेसा, नै । ननमें...परी ॥ सारेंनी सा,पध् । मपसां रेंनीसां, ।  
 ३ ४ = ०  
 पंधंमं पंमं ग्ं । रेंसांनी धूपम । ग्,मप नीसां ग्ं । ग्ं रेंसां नीधूप ॥ मग्,म पनीसां । रेंसांनी धूपम ।  
 २ ० ३ ४ = ०  
 ग्,मप नीसांनी । धूपम ग्,मप । धूपम ग्,मग् । रेंसांनी सा ॥ नैनन...परी ॥ नीसा ग्म । पनी नीसां ।  
 २ ० ३ ४ = ०  
 ग्ंमं पंपं । पंपं पंपं । मं ग्ं रेंसां । नीध् पम, ॥ ग्म पनी । सां ग्ं ग्ं । ग्ं ग्ं । रेंसां नीध् ।  
 २ ० ३ ४ = ० २ ३  
 पम, ग्म् । पनी नीनी ॥ नीनी नीध् । पम, ग्म । पप पप । पप मग् । र्सा नीसा, । नीसा मग् ॥  
 ३ ४ = ० २ ३ ४ नैनन...परी

अंतरा, निसादिन सोवत

म

सां S | S S | S S | S S | S नी । धूप ॥ म ग् । म ग् । S S, । ग्म पसां । S S | S S ॥  
 = ० २ ० ३ ४ = ० २ ० ३ ४  
 निसादिन सोवत । सां S | S S, । नीध् पम । ग्म पसां । S S | S S, ॥ रें नी । सां S ।  
 = ० २ ० ३ ४ = ०

सां मं सां मं  
 S S, | नी सां । गूं S । रें नी ॥ सां S । S S, | नी सां । गूं पं । S मं गूं । रें नी ॥ सां S ।  
 २ ० ३ ४ = ० २ ० ३ ४ =

मं म  
 S S । S S, । गूं सारें । नीसां ऽनी । धू प ॥ S म गूं । म गूं । S S । S S, । गुम पसां ।  
 ० २ ० ३ ४ = ० २ ० ३

S S ॥ निसादिन सोवत  
 ४

पनी पनी । सां, मप । मप नी, । गूम गूम । प, साग् । साग् म, ॥ नीसा गुसा । मग् पम । नीप सांनी ।  
 = ० २ ० ३ ४ = ० २

रेंसां गुरें । सांनी धूप । मप सां ॥ निसादिन सोवत ॥ सांनी ऽसां । पनी सां, । नीप ऽनी । मप नी, ।  
 ० ३ ४ = ० २ ०

पम ऽप । गूम प, ॥ मग् ऽम । साग् म, । सासा सा, म्, ग्ग्, मम । म, प पप, । नीनी नी, सां ॥ सांसां, रेंसां ।  
 ३ ४ = ० २ ० ३ ४ =

नीसां मंगूं । रेंसां नीधू । पम गुरे । सा, गूम । पनी सां ॥ निसादिन सोवत ॥ पनी सां, प । नीसां, पनी ।  
 ० २ ० ३ ४ = ०

सारें सांनी । धूप मग् । रेंसा नीसा, । मग् पम ॥ धूप सांनी । रेंसां गुरें । मंगूं पंमं । गुरें सांनी ।  
 २ ० ३ ४ = ० २ ०

धूप मग् । मप सां ॥ निसादिन...देखो । गुम पनी । S, धूप । मप नी, ॥ नीसा मग् । मप नी, । सांनी S, ।  
 ३ ४ ० ३ ४ = ० २

सांगूं रेंसां । नी, नीसां । गूंमं पंगूं ॥ रेंसां नी, । मप सांनी । नी S । साग् मप । नी S, । सां S ॥  
 ० ३ ४ = ० २ ० ३ ४

गूम पग् । रेंसा नीसा, । गूम पनी । सां S, । गूम पनी । सां S ॥ निसादिन सोवत ॥ मंगूं रेंसां ।  
 = ० २ ० ३ ४ =

नीसां गूंमं । पंगूं ऽमं । गुरें सारें । नीसां पनी । मप गूम, ॥ नीसा गूम । गूम पनी । मप नीसां ।  
 ० २ ० ३ ४ = ० २

पनी सारें । नीसां गूंमं । पंमं गुरें ॥ सांनी धूप । मग् रेंसा । नीसा गूम । प, नीसा । गूम प, । नीसा गूम ॥  
 ३ ४ = ० २ ३ ४

बोलतानें

नी ग् | सा म | ग् प | प नी | सां गुं | रें सां ||  
 नै ऽ न ऽ आ ऽ न ऽ बा ऽ न ऽ || नैननमें आन बान  
 = ० २ ० ३ ४

नीसा ग् | सा, साग् | म ग्, | ग्म प | म, सां | ऽ सां ||  
 नै ऽ ऽ, नऽ | ऽ ऽ, में ऽ ऽ | ऽ, आ | ऽ न || नैननमें आन बान  
 = ० २ ० ३ ४

ग् सासा | म ग्ग् | प मम | ध् पप | नी ध्प | सां ऽसां ||  
 नै ऽ न ऽ में ऽ आ ऽ न ऽ बा ऽन || नैननमें आन बान  
 = ० २ ० ३ ४

म म  
 प पग् | मप ग् | रेंसा ऽसा | प पग् | मप ग् | रेंसा ऽसा ||  
 नै नन में ऽ आ नबा ऽन नै नन में ऽ आ नबा ऽन || नैननमें आन बान  
 = ० २ ० ३ ४

म म म म  
 प ऽ प ग् | पप पप | पप पप | प प | प प || प ऽ प ग् | म प | प ऽ प ग् | म प ||  
 नै ऽ न न आन बान आन बान आ न बा न नै ऽ न न में ऽ नै ऽ न न में ऽ ||  
 = ० २ ० ३ ४ = ० २ ० ३ ४

सा  
 प ऽ प ग् | म प | ग् ऽ | रें सा | ऽ सा || नी ऽ सा म | ग् म | ग्म पनी | सांनी ध्प | मग् रेंसा ||  
 नै ऽ न न में ऽ आ ऽ न बा ऽ न || कौ ऽ न सी | ऽ प | रीऽ ऽ | ऽ ऽ | ऽ ऽ ||  
 = ० २ ० ३ ४ = ० २ ० ३ ४

नैननमें आन बान

सां ऽ | सां गुं | रें सां | नी ऽ | सां ध् | ऽ प || सां ऽ | नी सां | ऽ रें | सां ऽ | सां नी | ध् प ||  
 नै ऽ न न में ऽ आ ऽ न बा ऽ न || कौ ऽ न सी | ऽ प | री ऽ | हा हा | हा हा ||  
 = ० २ ० ३ ४ = ० २ ० ३ ४

नैननमें आन बान

म सा  
 प म | ऽ ध् | प ऽ | ग् म | ग् प | ऽ प || नी सा | ऽ म | ग् म | प ऽ | प ऽ | प ग् ||  
 नै ऽ न न में ऽ आ ऽ न बा ऽ न || कौ न | ऽ सी | ऽ प | री ऽ | नै ऽ | न न ||  
 = ० २ ० ३ ४ = ० २ ० ३ ४

नैननमें आन बान



नी सा | ग् म | प नी | सां सां | सां स | नी सां || स रे | सां स | स सां | नी सां | स रे | सां स ||  
 नै न | न में | आ न | बा न | कौ स | न सी | स प | री स | स कौ | न सि | स प | री स ||  
 = ० २ ० ३ ४ = ० २ ० ३ ४

नैननमें आन बान

नी सा | ग् म | प नी | सां सां | ग् म | प नी | सां ग् | स सां | स नी ध् प | म ग् | रे सा ||  
 नै न | न में | आ न | बा न | कौ न | सी प | री स | स नै | स न | न में | आ न | बा न ||  
 = ० २ ० ३ ४ = ० २ ० ३ ४

प स | प ग् | प स | प ग् | प स | प ग् ||  
 नै स | न न | नै स | न न | नै स | न न || नैननमें.... परी  
 = ० २ ० ३ ४

ग् म प ध् | प म, ग् म | प ध् प म, | सां नी | ध् प | स स | नी स | सां ग् | रे सां | ग् रे | सां ग् | रे सां ||  
 नै स | स न स | स स | आ न | बा न | स स | कौ स | न सी | स प | री स | स स | स स ||  
 = ० २ ० ३ ४ = ० २ ० ३ ४

नी ध् | स सां | नी ध् | प प | प प प प | प प प प ||  
 नै स | स न | आ न | बा न | आन बान | आन बान || नैननमें आन बान  
 = ० २ ० ३ ४

नीसा ग् म | पनी स | स नी | ध् प स म | ग् स | ग् म पसां || स स | नी सां | स सां | स स ||  
 नै स | स | स स | स न | में स | स स | आ स | स || स स | न बा | स न | स स ||  
 = ० २ ० ३ ४ = ० २ ०

स नी | नी सां ग् || स रे | नी सां स | नी ध् स | सां नी | ध् प स म | ग् म प ||  
 स कौ | न सी स || स स | प स | री स | स स | स स || नैननमें आन बान  
 ३ ४ = ० २ ० ३ ४

सारैनी सा, नीसा। ग् ग रे सानीसा,। ग् म प ध् प म,। ग् म प नीनी ध्। प म, ग् म प नी। सारैनी सां, नीसां ॥  
 = ० २ ० ३ ४

ग् ग रे सां नीसां,। ग् म पं मं ग् मं। ग् रे सां नीसां, ग्। ग् रे सां नी रे सां,। नी ध् प म, ग् म। प नी सां नी ध् प ॥  
 = ० २ ० ३ ४

म, ग् म प नीनी। ध् प म, ग् म प। ध् प म, ग् म म। ग् रे सा, नी सा ग्। म प नी सां नी ध्। प म ग् रे सा स ॥

	म		म		म		म
प ऽ	प ग्	म प	प ऽ	प ग्	म प	प ऽ	प ग्
नै ऽ	न न	मै ऽ	मै ऽ	न न	मै ऽ	मै ऽ	न न
=	०	२	०	३	४	=	०
							२
							०
							३
							४

सा

नी ऽ	सा म	ग् म	नीसा ग्म	प, नीसा	ग्म प	नीसा ग्म	प ऽ	प ऽप	ग्म प
कौ ऽ	न सी	ऽ प	कौन सीप	री, कौन	सीप री	कौन सीप	री ऽ	मै ऽन	नमै ऽ
=	०	२	०	३	४	=	०	३	०

गू ऽरे	सा ऽसा	नी ऽ	सा म	ग् म	ग्म पनी	सांनी	धूप	मग् रेसा	प ऽ
आ ऽन	बा ऽन	कौ ऽ	न सी	ऽ प	री ऽ ऽ	ऽ ऽ	ऽ ऽ	ऽ ऽ	नै ऽ
३	४	=	०	२	०	३	४	=	(सम)

प्रथम भाग समाप्त.



---

---

*Printed at the Israelite Press, 6, Church Road, Poona,*  
and  
*Published by Mr. Firoze Framjee, 322, Main Street, Poona.*

---

---

# उत्तम संगीत के पुस्तकें.

## हिंदी भाषा के पुस्तकें.


चतुर मत हिंदुस्तानी संगीत की एनसाइक्लोपिडिया :

१ कल्याण थाट के १७ रागों के पुस्तक ... ..	किं. रु. २॥
२ विलावल थाट के २२ रागों के पुस्तक ... ..	” रु. २
३ काफी थाट के ४० रागों के पुस्तक ... ..	” रु. ३॥
४ आसावरी, भैरवी और तोड़ी थाट के २० रागों के पुस्तक ... ..	” रु. २
खयाल - गायकी ... ..	” रु. १॥
राग सिरीझ - छे भाग ... ..	प्रत्येक भाग की ” १२ आना.
तान प्रवेश ... ..	” १२ आना.
सन्त गीत लहरी ... ..	” रु. २
सितार होम उद्युटर ... ..	” रु. १॥
सितार गततोडा संग्रह ... ..	” रु. १

## गुर्जर भाषा के पुस्तकें.

हिंदुस्थानी संगीत विद्या - तीन भाग. ... ..	प्रत्येक भाग की किं. रु. २
शास्त्रीय संगीत कला शिक्षक ... ..	” रु. २
झवाहिरे जरथोइती संगीत माला - दो भाग. ... ..	प्रत्येक भाग की ” रु. १

उपरोक्त पुस्तकों को पढकर हजारों लोकोंने लाभ उठाया है. यह पुस्तकों का पूरा हाल जानने के लिए बडा सूचापत्र मंगाकर देखिए. मुफ्त मिलेगा.

 नाम और ठिकाणा स्पष्ट लिखने की रूपा करें.

लेखक और प्रकाशक :

३२२, मेन स्ट्रीट, }  
केप पूना. }

पंडित फिरोझ फ़ामजी,  
संगीतशास्त्री.

